



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15—जुलाई 21, 2006 (आषाढ़ 24, 1928)  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15—JULY 21, 2006 (ASADHA 24, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

#### भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400005, दिनांक 22 जून 2006

संदर्भ: बैंपविधि. सं. आरईटी. बीसी. 90/12.01.001/2005-06--  
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल मांग और मियादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा 22 जून 2006 से विद्यमान नहीं है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की संशोधित उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और देश में मौद्रिक स्थिरता बनाये रखने की ज़रूरत को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को 22 जून 2006 की अधिसूचना सं. बैंपविधि. आरईटी. बीसी. 92/12.01.001/2005-06 में परिकल्पित छूट के अधीन अपनी कुल मांग और मियादी देयताओं के 5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात जारी रखना चाहिए। यह 11 सितंबर 2004 की अधिसूचना बैंपविधि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.01.001/2004-05 के आंशिक आशोधन में किया गया है।

आनंद सिन्हा  
कार्यपालक निदेशक

कुल मांग और मियादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा 22 जून 2006 से विद्यमान नहीं है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता बनाये रखने की ज़रूरत को देखते हुए, अनुसूचित बैंकों के लिए किसी न्यूनतम दर या उच्चतम दर के बिना प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निर्धारित कर सकता है। इन शक्तियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बनाये रखे जानेवाले उनकी मांग और मियादी देयताओं के 5 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की दर को यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को उनके द्वारा निम्नलिखित देयताओं पर 5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने से 22 जून 2006 से छूट देता है:--

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत परिकल्पित, भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं;
- एशियाई समाशोधन यूनिन खातों (अमेरिकी डालर) में जमा शेष;
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदान संबंधी दायित्वों वाले लेनदेन; तथा
- उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के संबंध में मांग और मियादी देयताएं।

आनंद सिन्हा,  
कार्यपालक निदेशक

संदर्भ : बैंपविधि. सं. बीसी. 92/12.01.001/2005-06--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में

## सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 27 जून 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, मई 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

## सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
-कुछ नहीं-					

## सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

भायखला (मुंबई सर्कल)  
9% राहत पत्र 1999 (डीपेट) (जी.पी.एच.)

बीसीएन-007344 से बीसीएन-007348 तक	₹. 1,00,000/- X 5	जयेश वसंत वैद्य मालिनी जयेश वैद्य	2.9.1999	जयेश वसंत वैद्य मालिनी जयेश वैद्य	06.25.95 2.9.2005
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	----------------------

नई दिल्ली सर्कल  
7.5% भारत सरकार ऋण 2010

डीएच-000373	₹. 1,00,000/-	फेडरल बैंक लि.	12.11.81	बी.पी. सिंगल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एकजम्पेटेड एम्प्लॉईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000329	₹. 1,85,000/-	-वही-	12.05.81	-वही-	-वही-

## 7% भारत सरकार का ऋण 2009

डीएच-000247	₹. 27,000/-	विनोद कुमार एंड कम्पनी	25.05.81	बी.पी. सिंगल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एकजम्पेटेड एम्प्लॉईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000248	₹. 20,000/-	-वही-	25.05.81	-वही-	-वही-
डीएच-000249	₹. 6,000/-	-वही-	25.05.81	-वही-	-वही-

## 9% भारत सरकार का ऋण 2013

डीएच-000184	₹. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ोदा	24.05.83	बी.पी. सिंगल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एकजम्पेटेड एम्प्लॉईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000185	₹. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000255	₹. 50,000/-	फेडरल बैंक लि.	24.11.83	-वही-	-वही-
डीएच-000256	₹. 45,000/-	फेडरल बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-

## सूची "ख"—जारी

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

## 10% भारत सरकार का ऋण 2014

डीएच-000212	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	30.11.84	बी.पी. सिंगल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद	एलएन-6/2005
				लेम्प ईपीएफ (एक्जम्प्टेड एम्प्लॉईज)	13.4.2006
डीएच-000213	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	30.11.84	-वही-	-वही-
डीएच-000214	रु. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

## 10.5% भारत सरकार का ऋण 2014

डीएचसी-000105	रु. 2,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	29.4.85	बी.पी. सिंगल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद	एलएन-6/2005
				लेम्प ईपीएफ (एक्जम्प्टेड एम्प्लॉईज)	13.4.2006

## 9% राहत बॉन्ड 1999

डीएचसी-000736	रु. 5,00,000	अशोक गर्ग, बबीता गर्ग और सत्यपाल गर्ग कोई एक या उत्तरजीवी	जी.पी. क्यूयूलेटिव आईसीआईसीआई बैंक लि.		एलएन-2/2005 24.4.2006
डीएचसी-000737	रु. 5,00,000	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000738	रु. 5,00,000	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000739	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000740	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000741	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000742	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

जे. एम. बावा  
सहायक प्रबंधक

## श्रम मंत्रालय

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय (पश्चिमी अंचल)

मुंबई-400051, दिनांक 14 जून 2006

सं. अकेआ/प.अ./30जे/डीएलआई/छूट/2006/पीटी-आई/235--सा.का. जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। (जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है)।

## अनुसूची-I

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं तिथि	कोड नं. सहित स्थापना का नाम एवं पता	छूट की अवधि
1	आरंभिक छूट	मै. अन्वेष्ट कॉमटेक इंजि. प्रा. लि., जीजे/बीडी/21027 ई-6, कल्पवृक्ष, जीईबी सब-स्टेशन के सामने, गोत्री रोड, बडोदरा।	1.3.00--28.2.03 1.3.03--28.2.06
2	आरंभिक छूट	मै. एल्सेन मशीन्स प्रा. लि., 270, जीआईडीसी, मारपुरा, बडोदरा-390010. जीजे/बीडी/10502.	1.11.00--31.10.03 1.11.03--31.10.06

## अनुसूची-II

- उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
- नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा

17 की उपधारा [2-क] के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रधारों का भुगतान आदि भी है, कि होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।
- नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी इसमें संशोधन किया जायेगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा।
- यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को भुगतान करेगा।
- यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।
- सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।
- यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पालिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितो/विधिक वारिसों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ को भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामित/नामितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

व्ही. एन. शर्मा  
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त  
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
नई दिल्ली

बार कौंसिल ऑफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2006

शुद्धिपत्र

भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड-4, तारीख 06.05.2006 में प्रकाशित, विधि में मान्यता प्राप्त विदेशी डिग्री धारण करने वाले आवेदकों के लिए परीक्षा से छूट से संबंधित अधिसूचना की तारीख को, जो हिन्दी भाग में पृष्ठ 1286 पर है, '21.2.200' के स्थान पर '21.2.2005' पढ़ा जाए और पृष्ठ 1406 पर अंग्रेजी में अधिसूचना की तारीख को '21.2.2005' पढ़ा जाए।

एस. राधाकृष्णन  
सचिव।

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2005-2006

दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट बराबर वर्ष 2005-2006 पेश कर रहा हूँ।

2. वर्ष के शुरू में निम्नलिखित दरगाह समिति के सदस्य थे।

(अ) जनाब पीरजादा सिबली कासिम साहिब,	अध्यक्ष,
(ब) जनाब सैयद अब्दुल बारी चिश्ती साहिब,	उपाध्यक्ष,
(स) जनाब प्रोफेसर अख्तरुल्लाह वासे साहिब,	सदस्य,
(द) जनाब हाजी ईनायत हुसैन साहिब,	सदस्य,
(य) जनाब अब्दुल कादिर भाई वाडीवाला साहिब,	सदस्य,
(र) जनाब शौकत अली अंसारी साहिब,	सदस्य,
(ल) जनाब मन्सूर अली "लल्ली" साहिब,	सदस्य,
(व) जनाब अब्दुल वहीद खां साहिब,	सदस्य,
(ष) जनाब आबिद अली कादरी साहिब,	सदस्य,

3. जनाब पीरजादा शिबली कासिम एवं जनाब सैयद अब्दुल बारी चिश्ती वर्ष 2005-2006 के लिए क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गए।

3.1 जनाब ए.क्यू. वाडीवाला, सदस्य, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर ने मोरखा 11 अक्टूबर 2005 को अपना इस्तीफा मंत्री

महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा परन्तु अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।

3.2 जनाब प्रोफेसर अख्तरुल्लाह वासे साहिब, सदस्य, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर का कार्यकाल मोरखा 24 दिसम्बर 2005 को पूर्ण हो गया। अभी तक नए मेम्बर का इस्तेखार नहीं हुआ है।

4. दरगाह वित्त चालू वित्तीय वर्ष के आय, व्यय एवं बचत के आंकड़े निम्नलिखित हैं। वर्ष 2004-2005 की आय के आंकड़े भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं :--

क्र. सं. विवरण	वर्ष 2004-2005	वर्ष 2005-2006
1. वर्ष के शुरू में ओपनिंग बैलेंस	399983	23202
2. वर्ष के दौरान आय (+)	18445085	21166440
कुल आय	18845068	21189642
3. वर्ष के दौरान खर्च (—)	18821866	20785298
4. क्लोजिंग बैलेंस चालू खाता में	23202	404344
5. आरक्षित फण्ड	4898688	6250000

कल्याणकारी एवं सखावत के कार्यों में निम्नलिखित खर्च हुआ :--

क्र. सं. विवरण	वर्ष 2004-2005	वर्ष 2005-2006
1. लंगर एवं रमजान लंगर	371254	490828
2. मेडीकल सहायता	141324	134292
3. लावारिश मैयतों का कफन दफन	131481	152231
4. निःशुल्क औषधि वितरण	401877	314896
5. विधवाओं को पेंशन	495973	530947
6. जरूरतमंदों की सहायता	157420	170120
7. शिक्षा पर व्यय	110550	94780
8. दारुल उलूम	212973	485688
9. ख्वाजा मॉडल स्कूल	870278	1050387
10. कम्प्यूटर सेन्टर	243845	252913
11. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चलाने पर खर्च	19819	21222
12. जकात	27936	48671
13. दरगाह कर्मचारियों के वेतन पर	7232909	7801299
कुल खर्च	10417639	11548274

5. लंगर एवं रमजान लंगर :--दरगाह समिति की तरफ से प्रतिदिन दो वक्त का लंगर बिना किसी जाँट पॉट या भेदभाव के बाँटा जाता है। लंगर के लिए (जौ एवं गेहूँ) रुपए 490828/- चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए। 276 किंव. 94 किग्रा. 800 ग्राम गेहूँ एवं 64 किंवटल 4 किग्रा. 400 ग्राम जौ खरीदा गया।

6. यह खर्च रमजान मास में दिए जाने वाले स्पेशल लंगर जो कि लगभग 450 व्यक्तियों को प्रतिदिन दिया जाता है के खर्च से अलग है। केन्द्रीय कारागृह में कैदियों के लिए अलग से इफ्तारी जैसे कि खजूर फल इत्यादि का प्रबंध किया जाता है, जो कि रोजा रखते हैं। इस मद पर इस वर्ष भी 1,90,000/- रुपए एक जायर ने खर्च किया। लंगर गरीब नवाज रेस्टोरेन्ट की जानिब से प्री पकाया गया। मैसर्स गरीब नवाज रेस्टोरेन्ट इस कार्य को गत 10 वर्षों से कर रहे हैं।

7. मेडीकल सुविधाएं :--यूनानी एवं होम्योपैथिक दवाखाने दरगाह समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस मद पर 314896/- रुपए का सर्फा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया। दोनों दवाखानों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 22543 (होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी) 36852 (यूनानी दवाखाना)=59395 कुल 59395/- मरीजों का उपचार किया गया।

#### 8. शिक्षा के प्रोग्राम :

8.1 दारूल उलूम मौईनिया उस्मानिया :--चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 485688/- रुपए दारूल उलूम पर खर्च किए गए। 80 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए एवं 70 तलबा मोरखा 10 शाबान 1425 हिजरी मुताबिक 15 सितम्बर 2005 को कामयाब हुए। वर्तमान में 56 तलबा राजस्थान राज्य के बाहर के एवं 18 स्थानीय तलबा तालीम ले रहे हैं। कुल 74 तलबा इस वक्त मदरसे में हैं। विवरण निम्न है :--

क्र. कक्षा सं.	तालिबे इलमों की तादाद
1. खामिसा	2
2. राबिया	5
3. सनिया	3
4. उला	4
5. ऐदादिया	2
6. तेहतानिया	25
7. हिफज	33
कुल छात्रों की संख्या	74

8.2 ख्वाजा मॉडल स्कूल :--ख्वाजा मॉडल स्कूल पर 1050387/- रुपए का सर्फा किया गया। इस वक्त स्कूल में 283 विद्यार्थी कक्षा नर्सरी से विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

8.3 गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर :--दरगाह कमेटी द्वारा एक कम्प्यूटर सेन्टर सिविल लाईन्स दरगाह अपार्टमेंट पर नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान, मानव विकास संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। वर्तमान में कम्प्यूटर सेन्टर पर 17 कम्प्यूटर्स सेट्स हैं। 65 छात्र इस समय कम्प्यूटर शिक्षा ले रहे हैं जहां दो फेकल्टीज को नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान, मानव विकास संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली ने स्वयं की जानिब से लगा रखा है।

वर्ष 2005 में 38 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 18 छात्र कामयाब घोषित किए गए। 20 छात्रों को पूरक परीक्षा दी गई।

9. वार्षिक उर्स :--हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का वार्षिक उर्सी एक रजब 1426 हिजरी मुताबिक 8, अगस्त 2005 से मानाया गया। कुल की रस्म 6 रजब 1426 हिजरी मुताबिक 13 अगस्त 2005 को हुई। 9 रजब 1426 हिजरी मुताबिक 16 अगस्त 2005 को गुलाब जल से दरगाह शरीफ की धुलाई जायरीन द्वारा की गई। करीब 7 लाख जायरीन ने उर्स में हिस्सा लिया।

दिनांक 11 अगस्त 2005 को एक सेमीनार एवं मुशायरा हजरत ख्वाजा साहिब (र.अ.) की शिक्षा एवं जीवनी पर विश्राम स्थली आनासागर पर रात 9.30 बजे आयोजित किया गया। लगभग 5 हजार जायरीन ने मुशायरे में भाग लिया। दरगाह शरीफ में दानदाता द्वारा स्पेशल लाईट का इंतजाम द्वितीय बार किया गया।

जिला प्रशासन अजमेर एवं दरगाह कमेटी ने जायरीन को सुविधा देने के लिए माकूल इंतजाम किए थे। दूरसंचार, राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस एवं रेलवे ने अपने स्पेशल काउंटर्स जायरीन की जरूरत के हिसाब से खोले थे। जायरीन की हिफाजत के लिए उन्हें पूर्व की भांति पहचान पत्र दरगाह कमेटी की तरफ से दिए गए।

10. रसूमात दरगाह शरीफ :--ख्वाजा साहिब के वार्षिक उर्स की मेहफिल ख्वाजा उस्मान हारुनी (र.अ.) एवं अन्य जुमैरात की मेहफिल, छठी शरीफ, चोहदवी शरीफ की मेहफिल को दरगाह कमेटी ने मुनक्कद कराया। इसी प्रकार खुल्फाए राहिदेन, मुहर्रम, ईद मिलादुन्नी इत्यादि को भी मुनक्कद कराया गया। ईदगाह और दरगाह शरीफ में नमाज ईदेन का बंदोबस्त कराया गया।

11. बाबा फरीद गंज-ए-शकर (र.अ.) का चिल्ला खुलवाना :--बाबा फरीद गंज-ए-शकर (र.अ.) का चिल्ला 72 घंटे के लिए दिनांक 3 फरवरी 2006 को मुताबिक 4 मुहर्रम 1427 हिजरी को खोला गया। करीब 25-30 हजार जायरीन ने जियारत की।

12. दरगाह ख्वाजा साहिब के लेखों का अकॅक्षण :--दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर के लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2003-2004 दिनांक 12 दिसम्बर 2005 से 24 दिसम्बर 2005 तक महालेखाकार, जयपुर के दल द्वारा की गई। कोई भी गंभीर आपत्ति नहीं पाई गई।

13. किरायादारी/लाईसेंस फीस से आय में बढ़ोतरी :--किरायादारी एवं लाईसेंस फीस में इस वर्ष कुल आय 29.09 लाख रुपए की हुई। इसी तरह गेस्ट हाउस से 81.79 लाख रुपए की आय हुई।

13.1 वर्ष के दौरान 17 मुकदमे किरायादारी के एवं अन्य 13 मुकदमे दरगाह कमेटी के हक में निर्णीत हुए।

14. ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना को वातानुकूलित किया जाना :--दरगाह कमेटी लगभग 100000/- रुपए माहाना इस मद में बिजली के बिल का प्रतिमाह भुगतान कर रही है।

15. मजार मुबारक पर संदल, फूल, मोमबत्तियों का पेश किया जाना :--पुरानी परम्परा अनुसार निम्नलिखित अखराजात संदल, फूल एवं मोमबत्तियां रोशनी के लिए मजार शरीफ पर पेश करने से हुए।

क्रम संख्या	आईटम	रुपए जो व्यय हुए
1.	गुले सुर्ख (गुलाब के फूल)	199992
2.	संदल	199546
3.	मोमबत्तियां	76357

## 16. मरम्मत एवं अनुरक्षण :--

## 16.1 निम्नलिखित कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए :--

क्रम संख्या	आईटम	रुपए जो व्यय हुए
1.	जायदाद शहरी दरगाह कमेटी	87730
2.	आरामगाह का अनुरक्षण	452837
3.	दरगाह अपार्टमेंट का अनुरक्षण	4620
4.	दरगाह शरीफ का अनुरक्षण	197860

16.2 शाहजहानी मस्जिद की मार्बल की सफाई का कार्य प्रगति पर है जो कि एक दानदाता द्वारा कराया जा रहा है।

17. कल्याणकारी एवं वित्तीय सहायता :--निम्नलिखित बड़े खर्च कल्याणकारी एवं सामाजिक कार्यों पर किए गए :--

17.1 विधवाओं को पेंशन :--वर्ष के दौरान 530947/- लाख रुपए की राशि विधवाओं एवं गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों पर खर्च की गई।

17.2 लावारिश मैयतों का कफन दफन :--वर्ष के दौरान 152231 रु. लावारिश मैयतों के कफन दफन हेतु खर्च की गई।

17.3 जरूरत मंदों को ( सादिर-ओ-वारिद) वित्तीय सहायता :--वर्ष के दौरान 170120/- रुपए जरूरत मंद व्यक्तियों को इमदाद वगेरह देने में खर्च हुआ।

17.4 मोहम्मद अली मेमोरियल सीनियर सेकण्डरी स्कूल को वित्तीय सहायता :--वर्ष के दौरान 24000/- रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

17.5 दरगाह सरवाड़ शरीफ को वित्तीय सहायता :--वर्ष के दौरान 6000/- रुपए की वित्तीय सहायता दरगाह सरवाड़ शरीफ को दी गई।

17.6 मेडीकल एवं इंजीनियरिंग के छात्रों को छात्रवृत्ति :--वर्ष के दौरान 64500/- रुपए की छात्रवृत्ति दी गई।

18. दरगाह समिति की बैठकें :--वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की चार बैठकें दरगाह के संबंध में आयोजित हुईं। दो बैठक किरायादारी उप-समिति की भी आयोजित हुईं।

19. अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दरगाह जियारत :-- निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका कि उल्लेख करना जरूरी है:-

1. जनरल परवेज मुशरफ, महामहिम राष्ट्रपति, पाकिस्तान गणराज्य।
2. श्री डॉ. प्रसन्ना कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री एम.एन. खर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर।
4. पाकिस्तान के वकीलों का शिष्टमण्डल।
5. श्री अमर सिंह जी सांसद।
6. डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, महामहिम राष्ट्रपति, भारत गणराज्य।

7. पाक जायरीन का शिष्टमण्डल।

8. जनाब कमाल शाह, गृह सचिव, पाकिस्तान सरकार।

9. जनाब यूनुस खान, यातायात एवं युवा क्रीड़ा मंत्री, राजस्थान सरकार।

10. जनाब हबीब आलम, उद्योग विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश।

11. श्रीमती शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश।

12. श्री तरलोचन सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय, अल्प संख्यक आयोग, भारत सरकार।

13. श्री मोहम्मद जहांगीर आलम, डायरेक्टर जनरल, बांग्लादेश।

14. श्री फखरुद्दीन साहिब, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट।

15. श्रीमती नजमाहेपतुल्ला साहिब, सांसद, (राज्यसभा)।

16. श्री मुरारी बापू।

17. श्री सिद्धराम सिन्हा, गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र।

18. श्री सैयद खालिद हुसैन, अपर सचिव, पाकिस्तान उच्चायोग।

19. श्री प्रफुल्ल पटेल, नागरिक राज्य उड्डयन मंत्री, भारत सरकार।

20. श्री सुशील कुमार शिन्डे, राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश।

21. श्री एम.ए. फातमी, केन्द्रीय मानव विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार।

22. श्री डॉक्टर सुबेल रुद्रा, उपाध्यक्ष, त्रिपुरा, विधानसभा।

23. श्री मोहम्मद मियाँ सुमरो, चेयरमैन, पाकिस्तान सीनियर सेनेट।

24. श्रीमती मोजाअल मसूर, महारानी कतर।

25. श्री सलीम अहमद, मुख्य सचेतक, कर्नाटक सरकार।

26. श्री डाक्टर रमेश दत्त शर्मा, अध्यक्ष, पंजाब विधानसभा।

27. श्री अहमद राशिद शेरवानी, सदस्य, राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग, दिल्ली।

28. श्री नवीन चावला, केन्द्रीय चुनाव आयुक्त।

29. श्रीमती गिरीजा व्यास, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।

30. उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल, अफगानिस्तान।

31. श्री अमानुल्लाह खान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री, पाकिस्तान।

32. श्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार।

33. श्री के. रेहमान खां, उप-सभापति राज्यसभा।

20. अंत में मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दरगाह कमेटी के तमाम सदस्यों का आभारी हूँ जिनके मार्ग दर्शन से प्रशासनिक और अन्य दरगाह से संबंधित समस्याओं का निपटारा कर सका।

मैं अपनी पूरी-पूरी कोशिश करूंगा कि दरगाह के वित्तीय साधन बढ़ाऊँ तथा सम्पत्तियों को सुरक्षित रख एवं जायरीनों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दरगाह कमेटी के मार्ग दर्शन में देऊँ।

अब्दुल अलीम  
नाजिम

दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के वर्ष 2003-04 के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

### 1. प्रस्तावना

1.1 दरगाहा ख्वाजा साहिब अधिनियम संसद द्वारा सन् 1955 में दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर (दरगाह) के उचित प्रशासन के लिए संसद के द्वारा पारित किया गया था। दरगाह धर्मों का प्रशासन, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का कार्य दरगाह कमेटी में निहित है, जो भारत सरकार द्वारा कमेटी के परामर्श पर नियुक्त किये गये "नाजिम" के माध्यम से कार्य करती है।

1.2 उक्त अधिनियम की धारा 19(2) में यह उल्लेखित है कि कमेटी प्रति वर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो दरगाह के लेखों और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। दरगाह की वर्ष 2003-04 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सहित भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित (5-11 फरवरी 2005) की गई है।

1.3 दरगाह के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत 5 वर्षों के लिए वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के लिए सौंपी गई है।

लेखों पर टिप्पणियाँ

### 2. तुलन-पत्र

#### 2.1 दायित्व

##### 2.1.1 चिन्हित निधि

(अ) यह 2.38 लाख से कम वर्णित है जो कि वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान निर्माण कार्य के लिए प्राप्त दान (रु. 18.10 लाख) का अव्ययित शेष का है, जिसे चिन्हित निधि में शामिल नहीं किया गया।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि संसद सदस्य (एम.पी.) निधि/विधान सभा सदस्य (एम.एल.ए.) निधि से प्राप्त किए गए दान को आय-व्यय खाते में दर्शाया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि ये दान विनिर्दिष्ट पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त हुए थे, इस कारण इन्हें चिन्हित-निधि में शामिल किया जाना चाहिए था।

(ब) यह रु. 43.54 लाख से कम वर्णित है जो कि अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के दायित्व की है जिसे लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के लेखे अलग से संधारित किए जा रहे हैं तथा इनका तुलन पत्र लेखों के साथ संलग्न किया जाता है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सी.पी.एफ. का दायित्व दरगाह की मुख्य तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

##### 2.1.2 संचित निधि रु. 3.42 करोड़

यह 3.85 लाख से कम वर्णित है जो कि गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर के छात्रों से प्राप्त की गई कम्प्यूटर फीस की शेष राशि है जिसे संचित निधि में शामिल नहीं किया गया है।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि कम्प्यूटर शुल्क को लेखों में आय के रूप में दर्शाया जा रहा था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उर्दू-भाषा के उत्थान हेतु नेशनल काँसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (एन.सी.पी.यू.एल.) के आदेश (नवम्बर 99) के अनुसार शेष शुल्क से

संचित निधि बनेगी जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपयोग में लाई जानी है।

### 2.2 आस्तियाँ

#### 2.2.1 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम रु. 30.71 लाख

यह रु. 2.78 लाख से कम वर्णित है जो कि रु. 2.66 लाख के मूल्य की स्टील एवं सीमेन्ट तथा रु. 0.12 लाख के मूल्य की होस्टल कच्ची सामग्री का अन्तिम स्टॉक है जिसे गलत रूप से क्रमशः आस्तियों एवं व्यय में शामिल किया गया है जब कि इन्हें चालू आस्तियों शीर्ष के तहत दर्शाया जाना था।

दरगाहा द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि लेखों की मरकेन्टाइल पद्धति के अनुसार निर्माण कार्य के लिए क्रय किए गए स्टील व सीमेन्ट को व्यय के रूप में पुस्तान्कित किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सीमेन्ट व स्टील की सम्पूर्ण राशि को क्रय वर्ष में ही पूंजीकरण किया जाना सही नहीं है तथा लेखांकन के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके अन्तिम स्टॉक को चालू आस्तियों शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

### 3. आय एवं व्यय लेखा

#### 3.1 अन्य आय रु. 1.39 लाख

यह रु. 0.20 लाख से कम वर्णित है जो कि वर्ष 2003-04 में वस्तुओं के रूप में प्राप्त किए गए एवं उपयोग किए गए दान की है, जिसे लेखाओं में शामिल नहीं किया गया था।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि वस्तुओं के रूप में प्राप्त दान को आय के रूप में नहीं दर्शाया जाता है परन्तु लेखों में पूंजीकृत किया जाता है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि वस्तुओं के रूप में प्राप्त दान तथा इससे सम्बन्धित लेन-देन लेखाओं में प्रकट होने चाहिए इसके अतिरिक्त सीमेन्ट (रु. 0.18 लाख) तथा यूनानी औषधी (रु. 0.02 लाख) को वर्ष 2003-04 के लेखों में पूंजीकृत भी नहीं किया गया है।

### 4. सामान्य

4.1 निम्नलिखित शीर्षों के तहत दर्शाई गई राशि सही अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है :--

क्र. सं.	शीर्ष का विवरण	राशि रु. लाख में	गलत अनुसूची	सही अनुसूची
1.	गेस्ट हाउस किराए की आय	78.51	अनु. 18	अनु. 15
2.	प्राप्त कम्प्यूटर फीस	1.02	अनु. 18	अनु. 14
3.	सी. डब्ल्यू. सी. ऋण पर ब्याज	2.95	अनु. 21	अनु. 23
4.	प्रतिभूति जमा	0.26	अनु. सं 4	अनु. 7
5.	सी. डब्ल्यू. सी. ऋण (असुरक्षित)	43.05	अनु. सं 4	अनु. 5
6.	अग्रिम में प्राप्त किराया	7.18	अनु. सं. 5	अनु. 7

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि नए प्रारूप द्वारा सुझाए गए वित्तीय विवरण का प्रपत्र उन पर लागू नहीं होता था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उसके लेखाओं के विद्यमान प्रारूप का सरकार द्वारा अनुमोदन के अभाव में, दरगाह के लिए वित्त मंत्रालय, लेखा महानियन्त्रक, नई दिल्ली द्वारा सुझाए गए नए प्रारूप में अपने लेखाओं को संकलित करना आवश्यक है।

4.2 रु. 1.02 लाख की राशि के स्वर्ण एवं रजत के मूल्यांकन में वृद्धि को पूंजीगत/संचित निधि में दर्शाए जाने के बजाए "पुनर्मूल्यांकन संचय" शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।



दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि स्वर्ण एवं रजत के मूल्यांकन में वृद्धि को पूंजीगत निधि में दर्शाया जा रहा था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्यों कि ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई गई स्थिर आस्तियों के मूल्य में बदलती कीमतों के कारण से आये उच्चायी संशोधन को "पुनर्मूल्यांकन संचय" शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

4.3 वार्षिकी राशि रु. 0.88 लाख तथा देय परन्तु प्राप्त नहीं हुई आय रु. 4.47 लाख जिन्हें "चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम" शीर्ष के तहत दर्शाया गया था, की सम्बन्धित देनदारों से पुष्टि नहीं कराई गई है।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि देय वार्षिकी बाद में प्राप्त हो गई है तथा देय परन्तु प्राप्त नहीं हुई आय को आय रूप में दर्शाया गया है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्यों कि उपर्युक्त दोनों राशियों को "चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त शेष की सम्बन्धित देनदारों से पुष्टि नहीं कराई गई थी।

4.4 (अ) आय एवं व्यय खाते में प्रकट ब्याज के रूप में प्राप्त रु. 4.45 लाख को बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु. 0.14 लाख के साथ में जोड़ (क्लब) लेनी चाहिए।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि इसे वर्ष 2004-05 के लेखाओं में जोड़ लिया गया है।

4.4 (ब) अन्य (विनिर्दिष्ट) व्यय उपशीर्ष के तहत अनुसूची 21 में, रु. 65.46 लाख दर्शाए गए हैं जो कि गलत है। यह वास्तव में पिछले पृष्ठ से आगे लाई गई राशि है जो कि पृष्ठ के सबसे ऊपर दर्शायी जानी चाहिए।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि नए प्रारूप द्वारा सुझाए गए वित्तीय विवरण का प्रपत्र उन पर लागू नहीं होता था। विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

4.5 स्थिर आस्तियों की सूची तैयार करने में निम्नलिखित कमियां पाई गई:--

(I) चल आस्तियों के प्रत्येक समूह पर प्रभारित मूल्यहास की दर का आधार अलग अनुसूची में या लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया है अनुसूची में मूल्यहास प्रभारित करने के बाद चल आस्तियों के केवल निवल अंक प्रकट हो रहे हैं।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि मूल्यहास का प्रतिशत चल आस्तियों के विवरण में वर्णित किया गया है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रभावित मूल्यहास की दर का कोई आधार अलग अनुसूची में या लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त तुलन पत्र की अनुसूची 8 में चल आस्तियों के केवल निवल अंक प्रकट हो रहे हैं।

(II) अचल सम्पत्तियों अर्थात् "बिल्डिंग" पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है। आगे यह कि वर्ष के दौरान जोड़े जाने (रु. 31.07 लाख) तथा घटाए जाने (रु. 10.66 लाख) के पश्चात् आस्तियों के केवल निवल अंक (रु. 20.41 लाख) कॉलम "वर्ष के दौरान जोड़े गए" के तहत दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि धर्मार्थ संस्था होने के कारण बिल्डिंग पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्यों कि स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के अभाव में लेख दरगाह की आस्तियों की सही स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

(III) भूमि की लागत से सम्बन्धित रु. 15.00 लाख को गलत रूप में "बिल्डिंग" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

दरगाह द्वारा स्वीकार किया गया (अप्रैल 2006) कि भूमि की लागत को "बिल्डिंग" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

4.6 (अ) आस्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला स्थिर आस्तियों के रजिस्टर का ना तो उचित रूप में संधारित किया गया है और ना ही आद्यतन किया गया है जिसके अभाव में तुलन पत्र में दर्शाई गई रु. 3.18 करोड़ के मूल्य की स्थिर आस्तियों की सत्यता को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि स्थिर आस्तियों का रजिस्टर संधारित किया जा रहा था तथा लेखा परीक्षा के समय दिखाया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्यों कि उचित ढंग से संधारित/आद्यतन किया गया आस्तियों का रजिस्टर लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया था।

(ब) वर्ष 2002-03 व 2003-04 के दौरान आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र कि दरगाह के पास कोई अप्रचलित, अनुपयोगी, मरम्मत के अयोग्य, अनुपयोगी-घोषित इत्यादि आस्तियां नहीं हैं, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जा रहा था तथा उसकी रिपोर्ट लेखा परीक्षा के समय दिखाई गई थी। उत्तर स्वीकार नहीं है क्यों कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा को नहीं दिखाई गई थी।

4.7 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा यद्यपि तैयार तथा लेखा परीक्षा द्वारा परीक्षित किया गया था, परन्तु वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखों के साथ नहीं लगाया गया है।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय-व्यय लेखे एवं तुलन पत्र की बुकलेट के साथ लगाया गया है परन्तु, उसकी प्रतिलिपि वित्तीय विवरण के प्रपत्र के साथ नहीं लगाई गई थी। उत्तर स्वीकार नहीं है, क्यों कि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा नए प्रारूप के अनुसार संकलित किए गए वित्तीय विवरणों के प्रपत्र के साथ भी लगाई जानी चाहिए थी।

4.8 तुलन पत्र एवं आय व्यय लेखा में अनुसूची संख्याएं वर्णित नहीं थी।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि नए प्रारूप द्वारा सुझाए गए वित्तीय विवरण का प्रपत्र उन पर लागू नहीं होता था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उसके विद्यमान लेखा प्रारूप के सरकार के अनुमोदन के अभाव में, दरगाह के लिए वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा सुझाए गए नए प्रारूप में लेखों को संकलित करना आवश्यक है।

4.9 अनुसूची 24 व 25 दरगाह के लेखों से संगत बिन्दुओं के बजाए केवल उदाहरणीय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों को इंगित करती है।

दरगाह द्वारा आक्षेप पर कोई टिप्पणी (अप्रैल 2006) नहीं दी गई।

4.10 दरगाह के लेखे सनदी लेखाकार के लेटर-हेड पर बनाए गए हैं।

दरगाह द्वारा बताया गया (अप्रैल 2006) कि इस वर्ष के लेखे (अर्थात् 2004-05) सनदी लेखाकार के लेटर-हेड पर तैयार नहीं किए गए हैं।

4.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत लेखा परीक्षा करने के लिए विहित मानक शर्तों के उल्लंघन में दरगाह के लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित किए जा रहे थे।

दरगाह द्वारा आक्षेप का कोई उत्तर (अप्रैल 2006) नहीं दिया गया।

5. लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का निम्नल प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निम्नल प्रभाव यह रहा कि 31 मार्च 2004 को आस्तियां रु. 43.66 लाख की कम बतलाई गई, दायित्व रु. 49.77 लाख के कम बतलाये गए तथा व्यय पर आय का आधिक्य रु. 6.11 लाख का अधिक बतलाया गया।

ह./- अपठनीय

स्थान : जयपुर

महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)

दिनांक : 21 अप्रैल 2006

राजस्थान, जयपुर

#### लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे तथा 31 मार्च 2004 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा टिप्पणियां की गई हैं :--

--निर्माण कार्य के लिए प्राप्त किए गए दान के अव्ययित शेष को चिन्हित निधि में शामिल नहीं किया जाना

[(पैरा सं. 2.1.1 (अ))]

--लेखों में अंशदायी भविष्य निधि के दायित्व को शामिल नहीं किया जाना

[(पैरा सं. 2.1.1 (ब))]

--स्थिर आस्तियों के आद्यतन रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना

[(पैरा सं. 4.6 (अ))]

--आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

[(पैरा सं. 4.6 (ब))]

--प्राप्ति एवं भुगतान खाता यद्यपि तैयार एवं लेखा परीक्षा द्वारा परीक्षित किया गया परन्तु लेखों के नए प्रारूप के अनुसार संकलित लेखों के साथ नहीं लगाया गया।

(पैरा सं. 4.7)

अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार मैं लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह./- अपठनीय

स्थान : जयपुर

महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)

दिनांक : 21 अप्रैल 2006

राजस्थान, जयपुर

## कृषि मंत्रालय

## कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

## कृषि भवन

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. 5-29/2005

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल की संविधियों में प्रथम संशोधन जो 8.9.2005 को हुई प्रबंध बोर्ड की बैठक में अनुमोदित तथा कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 5-29/2005-सीएयू दिनांक 14.3.2006 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो गये हैं तथा सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित किये जाते हैं।

क. खंड सं.

वर्तमान प्रावधान

संशोधित प्रावधान

## कुलपति

- |    |      |  |  |
|----|------|--|--|
| 1. | खंड  | खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में कुलाध्यक्ष के एक नामित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव शामिल होंगे और कुलाध्यक्ष का नामित इस समिति का संयोजक होगा।   | 2(2)(1) खंड 2(1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:<br>(i) सचिव, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार — अध्यक्ष<br>(ii) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव — सदस्य<br>(iii) कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति इस समिति का संयोजक होगा। |
| 2. | 2(4) | कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:<br><br>बशर्ते इसके कि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को उसकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने का निर्देश दे सकता है किंतु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी | 2(4)कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह आगे पाँच वर्ष की अवधि तक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो<br><br>2(4) पैरा 3 हटा दिया गया                                     |

जैसा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

3. 2(5) कुलपति की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी :—  
(iii) कुलपति ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए, यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
  4. 2(5)(vi) नया प्रावधान
  5. 2(5)(vii) नया प्रावधान
  6. 3(1) कुलपति के अधिकार एवं कर्तव्य  
कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियों प्रदान करने के लिए अयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
  7. 3(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलवाने का अधिकार होगा।
  8. कालेजों / संकायों के अध्यक्ष  
खंड 4(1) नया प्रावधान
- 2(5) (iii) कुलपति ऐसी दरों से जो भारत सरकार द्वारा सचिव, भारत सरकार के समकक्ष अधिकारी के लिये नियत की जाए, यात्रा और अन्य भत्ते का हकदार होगा। इसके अलावा सेवा में आने तथा त्यागने समय वह भारत सरकार के सचिव स्तर के समकक्ष अधिकारी के लिये अनुमत दरों से स्थानांतरण यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा।
- 2(5)(vi) कुलपति भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत एवं गृह यात्रा रियायत के हकदार होंगे।
- 2(5)(vii) कुलपति भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्यलय छोड़ने के समय छुट्टी नकदीकरण के लाभ का हकदार होगा।
- 3(1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियों प्रदान करने के लिए अयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
- 3(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तार शिक्षा परिषद् और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलवाने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो संबंधित कालेज का भी अध्यक्ष होगा। तथापि किसी संकाय में एक से अधिक कालेज हो तो कुलपति किसी एक अध्यक्ष को संकायाध्यक्ष नामांकित कर सकते हैं।

9. खंड महाविद्यालय के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की 4(1) महाविद्यालय के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की  
4(1) नियुक्ति कुलपति द्वारा महाविद्यालय के नियुक्ति बोर्ड द्वारा संविधियों के खंड 18 के  
प्रोफेसरों में से पॉच वर्ष की अवधि के लिए की अनुसार इस उद्देश्य के लिये गठित चयन  
जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा : समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और वह  
विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक  
अधिकारी होगा ।
10. नया प्रावधान संकायाध्यक्ष किराया मुक्त एवं असज्जित  
आवास के हकदार होंगे ।  
परन्तु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु होने पर 4(1) पैरा 2 परन्तु संकायाध्यक्ष/बासठ वर्ष की  
उस पद पर नहीं रहेगा आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं  
रहेगा
11. नया प्रावधान 4(1) संकायाध्यक्ष पॉच वर्षों की अवधि तक  
पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के हकदार  
होंगे बशर्ते कि संकाय अध्यक्ष 62 वर्ष की आयु  
पूरी होने पर पद छोड़ देंगे ।
12. 4(3) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय का अध्यक्ष होगा संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय में अध्यापन और  
और महाविद्यालय में अध्यापन और अनुसंधान अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर  
के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के बनाए रखने के लिए कुलपति के प्रति  
लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य उत्तरदायी होगा और वहे ऐसे अन्य कार्य भी  
कार्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित करेगा जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जा  
किये जा सकते हैं । सकते हैं ।
13. 4(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति अध्ययन बोर्डों 4(4) संकायाध्यक्ष संकाय के अध्ययन बोर्ड  
या महाविद्यालय की समितियों की किसी का पदेन अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के विद्या  
बैठक में उपस्थित होने और बोलने का परिषद, अनुसंधान परिषद और विस्तार शिक्षा  
अधिकार होगा जैसा भी मामला हो किन्तु जब परिषद का सदस्य होगा ।  
तक उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे मत  
देने का अधिकार नहीं होगा ।

#### निदेशक शिक्षा

14. नया प्रावधान 5(1) पैरा 2 निदेशक, शिक्षा किराया मुक्त एवं  
असज्जित आवास का हकदार होगा ।

15. 5(2) निदेशक शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद पर बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :  
परन्तु निदेशक, शिक्षा साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।  
**निदेशक अनुसंधान**
16. नया प्रावधान 6(1) पैरा 2 निदेशक, अनुसंधान किराया मुक्त एवं असज्जित आवास के हकदार होंगे।
17. 6(3) निदेशक, अनुसंधान विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कार्य के निष्पादन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
18. नया प्रावधान 6(4) निदेशक, अनुसंधान विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति के पदेन सदस्य—सचिव होंगे
19. निदेशक, विस्तार शिक्षा नया प्रावधान 7(1) पैरा 2 निदेशक, विस्तार शिक्षा किराया मुक्त एवं असज्जित आवास के हकदार होंगे।
20. 7(2) निदेशक विस्तार शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।  
परन्तु विस्तार शिक्षा निदेशक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेंगे। 7(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।  
परन्तु विस्तार शिक्षा निदेशक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेंगे।
21. 7(3) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। 7(3) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कार्य के निष्पादन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा
22. नया प्रावधान 7(4) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय

की विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य  
सचिव होंगे ।

### कुलसचिव

23. खंड 8(1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।
24. नया प्रावधान 8(2) पैरा 2 उसे अधिकतम पाँच वर्षों के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है ।
25. 8(3) पैरा 3 बशर्ते इसके कि कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो ।
26. नया प्रावधान 8(3) हटा दिया गया
27. 8(7)इ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध और पर्यवेक्षण करना 8(7)इ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध करना
28. खंड 9(1) नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।
- 9(1)नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए संविधियों के खंड 18 के अंतर्गत यथावत गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का

पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

29. नया प्रावधान

9(1) पैरा 2 नियंत्रक को भी अधिकतम पाँच वर्षों की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है ।

30. 9(3) नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य  
पैरा 1 निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो अध्यदेशों द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

9(3) पैरा 1 नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो अध्यदेशों द्वारा निर्धारित की जायें । यदि किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाती है तो उसकी सेवावधि, परिलब्धियां और अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार होंगी ।

31. 9(3) परन्तु यह और कि नियंत्रक, साठ वर्ष की  
पैरा 3 आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो ।

9(3) पैरा 3 हटा दिया गया

32. 9(6) नियंत्रक

ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकते हैं जो संविधियों या अध्यदेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं ।

ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकते हैं जो संविधियों या अध्यदेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा समय समय पर सौंपे जाए ।

विभागाध्यक्ष

33. खंड 10 प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो  
(1) पैरा 1 एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कार्य तथा

10(1) पैरा 1 प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा की



नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

जायेगी, जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कार्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

वह अध्ययन के लिये संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिये अनुसंधान निदेशक, विस्तार शिक्षा के लिये विस्तार शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा। तथापि संकायाध्यक्ष संबंधित कालेजों के विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी होगा।

34. 10(1) पैरा 2 बशर्ते किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर है तो विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रोफेसरों में से कुलपति की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाएगा :
35. 10(1) पैरा 3 बशर्ते इसके कि ऐसे विभाग के मामले में, जहां केवल एक प्रोफेसर है बोर्ड को कुलपति की सिफारिश पर प्रोफेसर को या एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा।
36. 10(1) पैरा 4 बशर्ते कि किसी ऐसे विभाग में जहां कोई आचार्य नहीं है बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
37. 10(1) पैरा 5 बशर्ते इसके कि यदि किसी प्रोफेसर या रीडर नहीं है तो संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- 10(1) पैरा 2 परन्तु यदि किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर है तो विभागाध्यक्ष प्रोफेसरों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा :
- 10(1) पैरा 3 बशर्ते इसके कि ऐसे विभाग के मामले में, जहां केवल एक प्रोफेसर है कुलपति को प्रोफेसर को या एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा।
- 10(1) पैरा 4 हटा दिया गया
- 10(1) पैरा 5 बशर्ते इसके कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय में किसी विभागाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जायेगा।

38. 10(6) नया प्रावधान  
पुस्तकालयाध्यक्ष 10(6) विभागाध्यक्ष बासठ साल की उम्र में सेवा निवृत्त होगा।
39. खंड 11 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। 11(1) पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा संविधियों के खंड 18 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
40. 11(2) प्रत्येक पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं। 11(2) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।
- बोर्ड का गठन, अधिकार एवं कार्य
41. 12(1) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य के कृषि और वन विभागों के प्रभारी सचिवों में से दो सचिव जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रम द्वारा कुलाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे; 12(1)(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य के कृषि/वन/पशुपालन/मत्स्य/बागवानी विभागों के प्रभारी सचिवों में से तीन सचिव जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा वर्णानुक्रम द्वारा नामित किए जाएंगे बशर्ते कि एक विशेष समय पर एक राज्य से एक से अधिक सचिव नहीं रहेंगे।
42. 12(1) (iii) दो प्रख्यात वैज्ञानिक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे; 12(1)(iii) तीन प्रख्यात वैज्ञानिक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे;
43. 12(1) (iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रख्यात व्यक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे 12(1)(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

44. 12(i) (ix) कोई उद्योगपति या विनिर्माता जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। 12(i) हटा दिया गया
45. 12(1) (x) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती हो। 12(1)(x) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती है कुलपति द्वारा नामित की जायेगी।
46. 12(1)xiii कम से कम संयुक्त/सचिव के पद के समकक्ष पदाधिकारी तीन व्यक्ति जो क्रमशः केंद्रीय सरकार के कृषि, पशुपालन और वानिकी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों। 12(1)xiii कम से कम संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पदाधिकारी दो व्यक्ति, जो क्रमशः भारत सरकार के कृषि व, पशुपालन विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों संबंधित सचिव द्वारा नामित किये जायेंगे।
47. नया प्रावधान 12(1)(xiv) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सचिव का एक नामित व्यक्ति।
48. 12(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की समयावधि दो वर्ष होगी 12(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की समयावधि तीन वर्ष होगी
49. 12(4) (iv) कुलाधिपति और कुलपति के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी मंजूर करने तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना; 12(4)(iv) हटा दिया गया
50. 12(4) (xiii) परीक्षकों और संचालकों को नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो हटाना तथा उनकी फीस, उपलब्धियों, और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् निर्धारित करना। 12(4)(xiii) परीक्षकों, विशेषज्ञों, सलाहकार, परामर्शदाताओं तथा विशेष कार्य अधिकारी की फीस, मानदेय, उपलब्धियों, और यात्रा भत्ते निर्धारित करना।
51. 12(4) (xviii) दौरा प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का निर्धारण करना और 12(4) (xviii) दौरा प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कार्य अधिकारी/विद्वानों की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और

## शर्तों का निर्धारण करना।

## बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति

- |     |              |   |  |
|-----|--------------|---|--|
| 52. | 13.          | बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी   | 13. बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी   |
|     |              | <b>विद्या परिषद् का गठन और शक्तियाँ</b>   |  |
| 53. |              | विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे —  |  |
| 54. | 14(1)<br>(i) | कुलपति — पदेन सदस्य   | 14(1) (i) कुलपति — पदेन अध्यक्ष  |
| 55. | 14(1)        | (vii) पाँच विशिष्ट शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय के बाहर के विभिन्न संकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किया जाएगा ;                             | 14(1) (vii) कुलपति द्वारा नामित दो विशिष्ट वैज्ञानिक जिन्हें विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा सहयोजित किया जाएगा ; |
| 56. | 14(1)        | (viii) विभागों के सात अध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे ;   | विभागों के सात अध्यक्ष प्रत्येक संकाय से कम से कम एक कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे                                      |
| 57. | 14(1)        | (ix) शिक्षा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि : पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा। | 14(1) (ix) पूर्वोत्तर परिषद् के कृषि विज्ञान में विशेषज्ञ को नामित किया जायेगा।  |
| 58. | 14(1)        | (x) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सदस्य—सचिव   | 14(1)(x) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव   |
| 59. | 14(2)        | विद्या परिषद् के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी  | 14(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी  |
| 60. | 14(3)(क)     | विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थाओं में  | 14(3)क शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थाओं में सहकारी अध्ययन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार और मूल्यांकन के          |

सहकारी शिक्षा अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निर्देश देना।

बारे में निदेश देने हेतु विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण करना।

61. 14(ब) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना, अन्तर्विद्यापीठ आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना।

14(ब) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना, और शैक्षणिक मामलों पर समितियाँ नियुक्ति करना।

#### विद्या परिषद् की बैठक की गणपूर्ति

62. 15) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

15) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

#### अध्ययन बोर्ड

63. खंड प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा  
16(1)

16(1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा

64. 16(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाएगी।

16(2) प्रत्येक संकाय के अध्ययन बोर्ड का गठन निम्नलिखित तरीके से होगा:

16(i) संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष

16(ii) निदेशक अनुसंधान — सदस्य

16(iii) निदेशक विस्तार शिक्षा — सदस्य

16(iv) कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के संकाय के सभी विभागाध्यक्ष — सदस्य

16(v) कुलपति द्वारा नामित विद्या परिषद् का प्रतिनिधि जो विशेष संकाय का न हो — सदस्य

16(vi) कुलपति द्वारा नामित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से बाहर के कृषि शिक्षा पद्धति के दो प्रख्यात वैज्ञानिक — सदस्य

- 16(vii) स्नातकोत्तर शिक्षा (अंतिम वर्ष) का सर्वाधिक ओ जी पी ए अंक पाने वाला छात्र – सदस्य
- (viii) संकाय का सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) – सदस्य
- 16(2)(ix) निदेशक शिक्षा – सदस्य
65. नया प्रावधान
66. 16(3) अध्ययन बोर्ड का कार्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधान के विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य उपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से सिफारिश करना है
67. 16(3) बशर्ते इसके अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कार्यों (घ) का पालन इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा
- वित्त समिति
68. खंड वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य 17(1) होंगे नामतः :-
- (i) कुलपति
- (ii) वित्तीय सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
69. 17(2) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों की होगी
- 16(3) अध्ययन बोर्ड का कार्य विभिन्न उपाधियों के लिए निर्धारित किये जाने वाले विद्या परिषद के पाठ्यक्रम को संबंधित संकाय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये सिफारिश करना तथा निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त अनशंसा करना है।
- (घ) हटा दिया गया
- 17(1) (i) कुलपति - अध्यक्ष
- 17(1) (ii) वित्तीय सलाहकार (डेयर) या उप सचिव के स्तर का उनका नामांकित व्यक्ति
- 17(2) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के तीन सदस्यों की होगी।

**चयन समितियां**

70. 18(2) नीचे दी गई सारणी के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति में कुलपति, निदेशक शिक्षा, अनुसंधान निदेशक, विस्तार शिक्षा निदेशक, कुलाध्यक्ष का एक नामित तथा उक्त सारणी के कॉलम (2) में सदृश प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

**सारणी****वर्तमान प्रावधान****प्रोफेसर**

(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह प्रोफेसर हो ;

(ii) कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर

(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्य-परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उसके विशेष ज्ञान या रुची के कारण की गई हो

**एसोसिएट प्रोफेसर / सहायक प्रोफेसर**

(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष

(ii) एक प्रोफेसर जो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा

(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्य-परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर का

**संशोधित प्रावधान****निदेशक, संकायाध्यक्ष**

(i) कुलपति या उसका मनोनीत अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से कुलपति के स्तर के तीन प्रख्यात वैज्ञानिक कुलपति द्वारा नामित होंगे ।

**प्रोफेसर/समकक्ष**

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत

(iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष सदस्य

(iv) कुलपति द्वारा नामित अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक सदस्य

बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से विभागाध्यक्ष स्तर के तीन प्रख्यात विषयों के विशेषज्ञ (कार्यरत या सेवानिवृत्त) कुलपति

संबंध होगा, उसके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो

### कुल सचिव, नियंत्रक

(i) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट इसके दो सदस्य; और

(ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे

(iv) पुस्तकालय अध्यक्ष

दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे

(v) कालेज के संकायाध्यक्ष, निदेशक या विभागाध्यक्ष

तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, दो बोर्ड द्वारा और एक विद्या-परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी उस विषय में उसके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो

द्वारा नामित होंगे।

### एसोसिएट प्रोफेसर / सहायक प्रोफेसर/समकक्ष

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष सदस्य

(iv) कुलपति द्वारा नामित अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक सदस्य

(v) प्रोफेसर स्तर के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष

(vi) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से कुलपति प्रोफेसर स्तर के दो प्रख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक (कार्यरत या सेवानिवृत्त) कुलपति द्वारा नामित होंगे।

### कुल सचिव, नियंत्रक, वैज्ञानिक

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iii) कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष या निदेशक

(iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से संबंधित विषयों के दो विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित होंगे।



## वर्तमान प्रावधान

## संशोधित प्रावधान

71. 18(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसका नामनिर्दिष्ट चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा
- बशर्ते कि चयन समिति की बैठकें कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और खंड (2) के अधीन बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सुविधानुसार पूर्व परामर्श के उपरान्त ही बुलाई जाएंगी :
- बशर्ते कि चयन समिति की कार्यवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक:—
- 18(3) (क) जब कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार ही हो, तो उनमें से कम से कम तीन व्यक्ति बैठक में भाग लें और
- (ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन हो तो उनमें से कम से कम दो व्यक्ति बैठक में भाग लें
- 18(3) (क) हटा दिया गया
- 18(3) (ख) हटा दिया गया
72. 18(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में दी जाएगी ।
- 18(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया साक्षात्कार से पहले समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी
73. 18(7) (i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो यह आगे आने वाले खंडों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :
- (i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो यह आगे आने वाले खंडों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :
- बशर्ते कि कुलपति इससे विश्वस्त हैं कि कार्य के हित में रिक्ति को भरना आवश्यक है तो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थायी समिति द्वारा पूर्णतः अस्थायी आधार पर छह मास की
- 18(7) (i) बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति को किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से 6 माह के लिये फिर 6 माह आगे विस्तार देने का अधिकार होगा ।

अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष की अवधि से कम के लिए है तो वह रिक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश से भरी जाएगी जिस में संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा :

बशर्ते इसके कि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परन्तु यह और कि मृत्यु या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों की अचानक आकस्मिक रिक्तियों के मामले में संकायाध्यक्ष, संबंधित विभागाध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) किसी भी स्थिति में अस्थायी रूप में नियुक्ति किया गया कोई भी अध्यापक, यदि इन संविधियों के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की एक नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक बना रहेगा या जब तक कि उसे अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए तदनंतर स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता, जैसा भी मामला हो।

होने पर अध्यादेशों से निर्धारित होंगे।

### मान्यताप्राप्त शिक्षक

75. 21(1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए
- 21(1)क) विभिन्न संकायों और अनुसंधान में उनके समकक्ष या विस्तार शिक्षा के निदेशक, संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँगी।
- ख) अशैक्षणिक कर्मचारी की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए
76. 21(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति में किये जायेंगे जैसी अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाए
- 21(2) हटा दिया गया
77. 21(3) किसी भी शिक्षक को अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रीति में इस उद्देश्य के लिये गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 21(3) हटा दिया गया
78. 21(4) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा नियत की जाएगी।
- 21(4) हटा दिया गया
79. 21(5) विद्या परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई से अनधिक बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक से मान्यता वापस ले सकती है।
- 21(5) हटा दिया गया
- बशर्ते कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति का निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो और जब तक उसके

आक्षेप पर, यदि कोई है और किसी साक्ष्य जो उनके समर्थन में वह प्रस्तुत करें या विद्या परिषद् द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता।

### शिक्षकों की सेवा की शर्तें व आचरण संहिता आदि

80. खंड 23(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षिक स्टाफ का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 23(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

### अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें व निबंधन एवं आचरण

81. 24 विश्वविद्यालय के शिक्षको तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के अलावा विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।
- 24) विश्वविद्यालय के सभी गैरशैक्षिक कर्मचारी तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में संविधियों, समय समय पर बनाये गये अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।

### विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का निष्कासन

82. 26(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड, और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, शिक्षक को या शैक्षिक स्टाफ के सदस्य को अथवा जैसा भी मामला हो अथवा अन्य कर्मचारी को कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।
- 26(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड, और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, शिक्षक को या शैक्षिक स्टाफ के सदस्य को अथवा अन्य कर्मचारी को जैसा भी मामला हो कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।
83. 26(3) उपर्युक्त के सिवाय, बोर्ड या जैसा भी मामला 26(3) उपर्युक्त के सिवाय, बोर्ड या नियुक्ति

हो नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान किया गया हो।

प्राधिकारी जैसा भी मामला हो किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान किया गया हो, अन्यथा नहीं।

84. 26  
(6)ख

यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो, बोर्ड को या जैसा भी मामला हो नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख को प्रभावी होगा जिस तारीख को बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

#### सलाहकार समिति

85 खंड 31

विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था की एक सलाहकार समिति होगी जिसमें पंद्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जिनमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त तीन शिक्षक होंगे जिनमें महाविद्यालय या संस्था का संकायाध्यक्ष भी है, और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे कार्यकारी अध्यक्ष

86. 33.

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति द्वारा बैठक में अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति का प्रावधान न किया गया हो अथवा जब सभापति के लिए इस प्रकार का प्रावधान हो किंतु वह अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य ऐसे बैठक

26(6)ख यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो, बोर्ड को या नियुक्ति प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

31) हटा दिया गया

33. जहां विश्वविद्यालय की किसी समिति की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति का प्रावधान न हो अथवा जब सभापति अनुपस्थित हो या कुलपति ने लिखित में कोई व्यवस्था नहीं की हो तो उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता

की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को चुन लेंगे ।  
करने के लिए अपने में से एक को चुन लेंगे ।

### सदस्यता और पद के लिये निवासी की

#### शर्त

87. 36. इन संविधियों में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, जो भी कोई व्यक्ति जो सामान्यतः भारत का निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र होगा ।
36. इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए जो भी, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा ।

#### छात्र परिषद्

88. खंड 39(1) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे ।
- 39(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये एक छात्र परिषद् होगी जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को खेलकूद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बादविवाद आदि सहित छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य कलापों के संबंध में सिफारिश करेगी और उसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे:
- (i) निदेशक शिक्षा, जो छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा ;
- (ii) वे सभी छात्र जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के दौरान अध्ययन, ललित कला, क्रीड़ा और विस्तार कार्य के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं
- (iii) अध्ययन, क्रीड़ा और व्यक्तित्व के सर्वतोन्मुखी विकास में प्रतिभा के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बीस छात्र
- i) कालेज का संकायाध्यक्ष
- ii) सभी छात्रावास वार्डन
- iii) कैपस संपदा अधिकारी
- iv) संकायाध्यक्ष द्वारा नामित पाँच विभागाध्यक्ष
- v) छात्रावास प्रीफेक्ट
- vi) प्रत्येक कक्षा से पूर्व शैक्षणिक सत्र में सर्वाधिक ओ जी पी ए अंक पाने वाला छात्र
- vii) छात्र कल्याण अधिकारी सदस्य— सचिव
- बशर्ते इसके कि विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से संबंधित कोई विषय छात्र परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अनुमति प्रदान की जाए, और उसे ऐसी किसी भी बैठक के दौरान विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, जब भी वह मामला विचाराधीन लिया जाता है ।

89. 39(2) छात्र परिषद् के कार्यों में अध्ययन, छात्र कल्याण और सामान्यतया विश्वविद्यालय के

कार्यकरण के संबंध में महत्व के अन्य विषयों

के बारे में विश्वविद्यालय के समुचित 39(2) हटा दिया गया

प्राधिकरणों को सुझाव देना होगा और ऐसे

90. 39(3) सुझाव सर्वसम्मति से दिए जाएंगे

छात्र परिषद् शैक्षिक वर्ष में कम से कम एक 39(3) छात्र परिषद् कम से कम प्रत्येक

बार अधिमानता: उस वर्ष के प्रारम्भ में अपनी सेमेस्टर में अपनी बैठक करेगी।

बैठक करेगी।

91. 43. अन्य संस्थानों एवं संगठनों से सहयोग

नया प्रावधान

43. विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के क्षेत्रीय परिसर, बारापानी, मेघालय को सम्मिलित करते हुये किसी भी शैक्षणिक और अनुसंधान में उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ विश्वविद्यालय को अपने स्नातकोत्तर व पी एच डी डिग्री प्रदान करने के आंशिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु स्नातकोत्तर अनुसंधान सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाने के लिये समझौता ज्ञापन के द्वारा अनुबंध करने का अधिकार होगा।

#### अनुसंधान परिषद् का गठन व कार्य

92. 44(1) नया प्रावधान

44(1) कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों एवं कार्यक्रम के सामान्य पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परिषद् होगी। अनुसंधान परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे

i) कुलपति अध्यक्ष

ii) निदेशक विस्तार शिक्षा सदस्य

iii) निदेशक, शिक्षा सदस्य

iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य

v) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 6 राज्यों में से प्रत्येक से राज्य सरकार का कम से कम निदेशक स्तर के 6 मनोनीत व्यक्ति

vi) विश्वविद्यालय के अनुसंधान दल के सभी समन्वयकर्ता सदस्य

vii) कुलपति द्वारा 3 साल हेतु नामांकित दो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सदस्य

viii) निदेशक अनुसंधान सदस्य सचिव

44(2) अनुसंधान परिषद साल में एक बार कम से कम बैठक करेगी।

44(3) अनुसंधान परिषद की बैठक में अनुसंधान परिषद के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

यदि त्यागपत्र या अन्य कारणों से रिक्ति उत्पन्न होती है तो बाकी समय के लिये उसे भर दिया जायेगा।

### विस्तार शिक्षा परिषद का गठन व कार्य

#### 93. 45(1) नया प्रावधान

45(1) कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा नीतियों एवं कार्यक्रम के सामान्य पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय में एक विस्तार शिक्षा परिषद होगी। विस्तार शिक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे

i) कुलपति — अध्यक्ष

ii) निदेशक अनुसंधान — सदस्य

iii) निदेशक शिक्षा — सदस्य

iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य



v) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 6 राज्यों में से प्रत्येक से राज्य सरकार का एक कम से कम निदेशक स्तर का मनोनीत व्यक्ति

vi) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों से 6 कृषक प्रतिनिधि एवं कुलपति द्वारा 3 साल हेतु नामांकित एक महिला समाज सेविका— सदस्य

vii) कुलपति द्वारा 2 साल हेतु नामांकित विश्वविद्यालय के बाहर से प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सदस्य

viii) निदेशक विस्तार शिक्षा सदस्य सचिव

45(2) विस्तार शिक्षा परिषद साल में एक बार कम से कम बैठक करेगी।

45(3) विस्तार शिक्षा परिषद की बैठक में विस्तार शिक्षा परिषद के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

94.

46(1) नया प्रावधान

46(1) पेंशन, उपदान एवं सामान्य भविष्यनिधि देने के संबंध में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 तथा सामान्य भविष्यनिधि (केंद्रीय सेवायें) नियम 1960 के प्रावधानों से नियंत्रित होंगे।


46(2) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 तथा सामान्य भविष्यनिधि (केंद्रीय सेवायें) नियम 1960 में भारत सरकार द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी लागू होगा

46(3) पेंशन विनियम (कम्यूटेशन) के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन विनियम)

नियम 1981 लागू होगा।

46(4) कुलपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय  
पेंशन संस्वीकृति अधिकारी तथा (2) पेंशन  
प्राधिकरण अधिकारी होंगे।

46(5) पेंशन अदायगी नियंत्रक कार्यालय में  
केंद्रीकृत और नियंत्रित होगी।



डी. के. छत्रवाल, अवर सचिव

## पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

## वार्षिक लेखा 2004-2005

दिनांक 31 मार्च 2005 का तुलन पत्र

पृष्ठ : 1

निगमित पूँजी निधि व दायित्व	सूची संख्या	2004-2005 चासू वर्ष	2003-2004 भूत वर्ष
		रुपये	रुपये
निगमित पूँजी निधि	1	603628380	723453172
अटकित व अधिशेष	2	50690746	38761700
विशेष प्रयोजन के लिये निर्धारित निधि	3	100747901	77722634
रबीभूत ऋणों व उधार लेना	4	0	0
अपरबीभूत ऋणों व उधार लेना	5	0	0
अस्थानित उधार दायित्व	6	0	0
चासू दायित्व व रकत	7	73255693	65968208
कुल		828322720	905905714
प्राप्तियाँ			
अवधिक जमा	8	486980562	50363263
विशेष प्रयोजन से निवेश	9	44130995	64719138
निवेश अन्य	10	190708247	189508247
चासू अस्तियाँ	11		148315066
कुल		828322720	905905714

(हस्ता...) एम वी राजेस्वरी

(एम वि राजेस्वरी)

वित्त अधिकारी

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

(हस्ता...)

डा ए के बटनागर

कुलपति

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

निगमित पूँजी निधि व दायित्व	2004-2005 चालू वर्ष	सूची संख्या	2003-2004 भूत वर्ष
आय	रुपये		रुपये
फिफ्टी व सेवा में आय		12	0
अनुदान आर्थिक/ सहायक	122244796	13	52849591
फीस व अनल्यूची	51026473	14	34961442
निश्चित की गई अनुसूची	0	15	0
रायस्ती व प्रकाशन से आय	0	16	0
दिलचस्पी समाहरित	714950	17	2673122
अन्य आय	0	18	0
ईतिशेष	0	19	0
कुल आय (A)	173986219		90484155
व्यय			
स्थापना प्रतिष्ठान व्यय			
अन्य निर्दिष्ट व्यय	117239674	20	10243707
अनुदान में व्यय	494997776	21	40052653
भाव में कमी	0	22	0
कुल व्यय(B)	27186450		0
आय से अतिरिक्त व्यय(A)	193925900		142489730
व्यय से अतिरिक्त आय(B)	19939681		52005575

(हस्त...) एम वी राजरमणी  
(एम वि राजेस्वरी)  
वित्त अधिकारी  
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

(हस्त...) डा ए के बटनागन  
कुलपति  
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पृष्ठ : 3

निगमित पूँजी निधि व दायित्व	2004-2005	रुपये	रुपये	2003 2004 मूल्य वर्ष
अनूसूची 1 बैंकीर पूँजी निधि				रुपये
पूँजी अनुदान गैर योजना	680099638			0
घटाव संपत्ति में कमी	125560043			
घटाव सिपिबल्यूजि से	9000000			
पिटुसिसिसिसिस के साथ स्थानम्तरण किया।				
घटाव: पिटुसिसिसिसिस से यूडिफ	55000000			605208473
जोड उपचित निवेशा ऋण व जमा	637308			
जोड गैर योजना अनूसूची	23726163			
जोड भूमि का मूल्य	1000			
जोड नवीकरण लेखा	0			
निवेशा से व्याज ऋण व जमा	731748			46935409
जोड उपहार में मिले कितारों का मूल्य	30696			
जोड टिसुनामि अनुदान	2900000			38200
घटाव एक समय का विशुष अनुदान	12437540			3755772
जोड एक समय का विशुष अनुदान				69775808
घटाव चिकित्सा अविम	238863			623714
घटाव टिसुनामि में डानि फर्नीचर	10755			
घटाव खोले हुए ग्रंथों का मूल्य	11548			
घटाव पर्यटन अविम	41242			
घटाव पूँजी अनुदान	0			12437540
जोड स्वचलन	7500000			6411010
घटाव एलसि धन वापसि	1926959			
कुल(A)	561908357			732363904

घटाव वाहनों सेचना	108285				255240	
घाफस मिलने वार्थों का मूल्य	0				3451	
अतिरिक्त व्यय आय (NP)	19939681				52005375	
(B)	20047966				52264266	
कुल C= (A) - (B)		541860391				690099638
योजना लेखा प्रारंभिक शेष	43353534					
जोड प्राप्तिर्गो	24438977					
जोड निवेश	697990					
कुल (A)	68490501					
घटाय	19225926					
जोड निस्सष्टि चार्जस	0					
जोड अविम	125590					
घटाव प्रप्तिर्गो	11658631					
घटाव सिपिडिबल्युडि के साथ जमा	970373					
कुल (B)	6722512					
कुल D= (A) - (B)		61767989			43853534	
कुल खूची (C+D)		603628980			723453173	

पृष्ठ # : 5				
		2004-2005		2003-2004
अनुसूचि 7 अद्वितीय व अतिरिक्त निधि				
मानव अधिकार कार्यालय निधि				
प्रारंभिक शेष	300386			300248
जोड़ प्राप्तियाँ	14025	314411		138
महिलाओं पढाई निधि				
प्रारंभिक शेष	294089			294089
जोड़ प्राप्तियाँ	13750	307839		0
अल्पमिनि निधि				
प्रारंभिक शेष	62601			62601
जोड़ प्राप्तियाँ	44800	107401		
छात्रों का न्याय निधि				
प्रारंभिक शेष	18760			18760
जोड़ प्राप्तियाँ	47880	66640		
वृक्ष लगाने अभियान				
प्रारंभिक शेष	9581389			9724963
जोड़ प्राप्तियाँ	0			340406
गुनि वापस मिलाना	2952516			0

					पृष्ठ # : 6
निवेष्टा से खाज	507308			2190151	
जोड़ खाज	80425			340406	
घटाव हेतु निवेष्ट चर्चलि	8203048		4918590	2674131	
विशेष कार्यस निवि					
प्रारंभिक चेष	3907004			3852335	
जोड़ प्राप्ति	425226		4332230	54669	
					3907004



पृष्ठ # : 7					
धन स्ति प					
प्रारम्भिक शेष	1108846			875818	
जोड प्राप्तिर्यो	5866818			1212998	
				2088816	208
घटाव व्यय	5846410	1129254		979970	1108846
युद्धिफ					
प्रारम्भिक शेष	23488625			23634395	
जोड प्राप्तिर्यो	7388895			2313685	
जोड व्याज	613421				
जोड मिले व्याज	1186992			1296317	
जोड मकान निधि	5500000			27244397	
जोड कानेर्जो से निधि	108772	38069161		3755772	23488625
इन्डस्ट्रियल इन्टरफेस निधि					
प्रारम्भिक शेष	0				38761700
जोड प्राप्तिर्यो	464245				
घटाव व्यय	350150	114095			

आवधिक आयस्यक विकास निधि					पृष्ठ # : 8
प्रारंभिक शेष	0				
जोड प्राप्तिर्वा	695000				
घटस व्यय	0	695000			
कंप्यूटर शेष निधि					
प्रारंभिक शेष	0				
जोड प्राप्तिर्वा	125000				
घटस व्यय	0	125000			
अन्त्यसि कुल		50690746			

पृष्ठ # : 9			
	2004-2005	2003-2004	
अनुसूचि 3 निरूपित की गई निधि			
धर्मस्थ निधि			
निरूपित विशेष निधि			
इस्मरसफ	67717956	37076627	
जोड प्रादियाँ	52881196	31027706	
जोड लाभदायक निवेश	591506		
कुल(A)	121190658	68104333	
व्यय	65841639		
जोड अग्रिम	691179	386372	
घटाव प्रादियाँ	32932322		67717956
घटाव चलसि अग्रिम	7171426		
घटाव सिपिडलर्युडि के साथ जमा	5530400		
घटाव व्यय	20898670		
(A) + (B)	100291988		
धर्मस्थ निधि			
धर्मस्थ निधि		7139938	

प्रारम्भिक शेष	10004678				पृष्ठ # : 10
जोड़ प्रतियाँ					
जोड़ इस वर्ष के खय	783330			2419752	
जोड़ नया धर्मस्व	126000			657277	
घटाव: खय				10216967	
	275830		10638178	212289	
					10004678
अन्वयि कुल			100747901		
					77722634
अन्वयि 4	रक्षित ऋण व उधार राशियाँ				
	अप्रयोज्य				
अन्वयि 5	अदक्षित ऋण व उधार राशियाँ				
	अप्रयोज्य				
अन्वयि व अगस्त्यानिवृत्त ऋण					
मुदेतर					

पृष्ठ # : 11					
	2004-2005			2003-2004	
अनुसूचि 7 चालू मुदेवर					
सावधान सुरक्षा जमा					
प्रारम्भिक शेष	6189196			4424720	
जोड़ प्राप्तियों	862109			2394221	
				6818941	
घटाव वापस मिलना	1441356	5609949		629745	6189196
बचाना रकम जमा					
प्रारम्भिक शेष	1965596			1897363	
जोड़ प्राप्तियों	2827927			343098	
				2240461	
घटाव वापस मिलना	287535	4505988		-274865	1965596

					पृष्ठ # : 12
				21150	21150
				7594	7594
सामान्य मन्त्रि मन्त्रि				43364645	
प्रारंभिक शेष	51350835				
जोड					
अभिदान	11779078			9308612	
पुनःप्राप्ति	7531374			7347298	
व्याज / निवेष्टा अभिदान के लिए	2503040			3790747	
व्याज 2003 04	1174591			3328396	
जोड उपरिक्त व्याज	1251127			6713961	
घटाव आरुण	18650024			-15788783	51350835
घटाव अभिदान के लिए व्याज	1174591			55765430	

पृष्ठ # : 13						
अंशदयित्व निधि						
प्रारंभिक शेष	6433837				5756325	
जोड़						
अंशदयित्व	521202				481950	
पुनःप्राप्ति	185980				173332	
व्याज / निवेश अमिदान के लिए	251547				235926	
व्याज 2003 04	23444				469621	
जोड़ उपरिक्त व्याज	88788					
समस्त व्याज अंशदान	387807				219807	
अतिरिक्त व्याज	185114				7336921	
घटाव आऊट	1108720				-903084	6433837
घटाव : अतिरिक्त व्याज	23444					
अतिरिक्त व्याज	185114			6760441		
मकदी स्वीकण						
प्रारंभिक शेष	7594				7594	7594
घटाव अदायगी	1930			5664		
कुल बीमा				21150	21150	21150
नया पेन्शन निधि						
प्रारंभिक शेष						

					पृष्ठ # : 14
जोड चंदा	12308				
जोड : समतुल्य अंशदान	12308				
जोड ख्याज	139	24755			
योजना खिदाबी पेमेन्ट ड्यु	562316	562316			
अनुसूची कुल		73255693			65968208



अनुसूचि 8 नियत अस्तित्वों गैर योजना												पृष्ठ 15	
वर्णन	कुल अस्तित्वों							अवशेष				शुद्ध जोड	
	मूल्य मल्यांकन वर्ष की शुरु में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	इस वर्ष की शुरु में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	चालू वर्ष की अंत तक	भूत वर्ष की अंत तक	अवशेष		
अ आवधिक जमा	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु		
1 पाडिचैरी भूमि	1000	0	0	1000	0	0	0	0	1000	1000	0		
बि पोट प्लेयर भूमि	197165	0	0	197165	0	0	0	0	197165	197165	0		
2 ईमारतों	199068511	0	0	199068511	19906851	0	0	19906851	179161660	199068511	10		
3 दफतार उपकरण	111850533	16632698	0	128483231	27962633	4158175	0	32120808	96362423	111850533	25		
4 वाहनो	6222541	0	108285	6114256	1244508	0	100560	1143948	4970308	6222541	20		
5 साज सामग्रियों	29100791	2130633	10755	31220669	4365119	319595	1613	4683100	26537569	29100791	15		
6 पुस्तकालय वार्थो	90155000	2355710	11548	92499162	54093000	1413426	6929	55499497	36999665	90155000	60		
7 अकस्मिक रोकस	44150			44150	44150	0	0	44150	0	44150	100		
कुल	435612732	89089662	130588	524571806	107359521	12402719	109102	119653138	404918668	435612732			
उपकरण के लिये प्राथमिक षोष रु 10,26,959/- 2003-2004 वर्ष की रकम से घटाव किया गया व 2004-2005 वर्ष में वापस किया गया।													

अनुसूचि 8 आवधिक जमा	योजना															पृष्ठ 16
वर्णन	कुल अस्तित्वों		अवक्षय										शुद्ध जोड			
	मूल्य मल्यांकन वर्ष की शुरु में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	इस वर्ष की शुरू में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	चालू वर्ष की अंत तक	भूत वर्ष की अंत तक	अवक्षय					
आवधिक जमा																
1 मकानों	184010	0	0	184010	18401	0	0	18401	165609	184010	10					
2 दफ्तर	4407645	2228632	0	6636277	1101911	557158	0	1659069	4977208	4407645	25					
उपकरण	0															
3 वाहनों	0	2124958	0	2124958	0	424992		424992	1699966	0	20					
4 साज	360797	0	0	360797	54120	0	0	54120	306677	360797	15					
सामग्री																
5 पुस्तक व पत्रिकाएँ	1071351	7595743	0	8667094	642811	4557446	0	5200256	3466838	1071351	60					
कुल	6023803	12220947	0	18244750	1817242	5607499	0	7424761	10820009	6023803						

अनुसूचि 8 नियत अस्तित्वों ईशमसससस												
वर्णन	कुल अस्तित्वों					अवक्षय					शुद्ध जोड	
	मूल्य मल्ल्याकन वर्ष की शुरु में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्ल्याकन वर्ष की अंत में	इस वर्ष की शुरु में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्ल्याकन वर्ष की अंत में	चालू वर्ष की अंत तक			पृष्ठ 17
	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	
आतथिक जमा												
1 मकानों	3800747	0	0	3800747	380075		0	380075	3420672	3800747	10	
2 दफ्तर उपकरण	49735953	36168612	0	85904565	12433988	9043153	0	21476141	64428424	49735953	25	
3 वाहन	257992	0	0	257992	51598		0	51598	206394	257992	20	
4 साज सामग्री	661406	709408	0	77084	99211	16411	0	115622	655172	661406	15	
5 पुस्तक व पत्रिकाएँ	5660924	377950	0	6038874	3396554	226770	0	3623324	2415550	5660924	60	
कुल	60117022	36655970	0	96772992	16361427	9285334	0	25646761	71126231	60117022		

रु 445240 रुकम जो सिधे साल की पत्रिकाओं की खरीद से लिखा थी अगिम में लाया गया।

अनुसूचि 8 आयधिक्रम जमा वर्ग	युक्ति	कुल अस्तित्वों				अवशेष				शुद्ध जोड				पृष्ठ 18
		इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	इस वर्ष की शुरू में	इस वर्ष में जोड	इस वर्ष में घटावों	मूल्य मल्यांकन वर्ष की अंत में	चालू वर्ष की मूल्य वर्ष की अंत तक					
	मूल्य मल्यांकन वर्ष की शुरू में													
	अवशेष													
	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु
आयधिक्रम जमा														
1 दफ्तर अकरण	12272		0	12272	3068	0	0	3068	9204	12272	12272	25		
2 साज सामग्री	125235		0	125235	18785	0	0	18785	106450	125235	125235	15		
कुल	137507	0	0	137507	21853	0	0	21853	115654	137507	137507			
कुल	501891064	133971317	130588	635731793	125560043	27295552	109102	152746495	486980562	501891064	501891064			
अकरण 2003 2004 वापस मिलना	1026959									1026959				
जोड पत्रिकाएँ	445240									445240				
कुल	503363263									503363263				

					पृष्ठ 19
					2003-2004
अनुसूची 9 ईशमएसएफ धर्मस्व निवेश	रु	रु	रु	रु	
ईशमएसएफ निवेश					
धर्मस्व निवेश	33901031				
	10229964	44130995	55115200	9603938	64719138
अनुसूची कुल		44130995			
अनुसूची 10 निवेश अन्य					
गैर योजना निवेश	0				
योजना	72175000		12003458		
श्रृणु व जमा लेखा	20732447		71175000		
जिपिफ लेखा	53800000		16637181		
ल्लिपिफ लेख	55500000		50700000		
गृह अग्रिम	4700000		6241808		
विश्वविद्यालय विकास निधि	33750800	190708247	23250800		189508247
अनुसूची कुल		190708247			189508247

	2004-2005		2003-2004		पृष्ठ 20
	रु	रु	रु	रु	
अनुसूची 11 चानू प्राद्वियों व अविम					
परिकार्य अविम अदायगी					
अदाय	6508399				
रकम व बैंक शेष	889				
स्विडलरयुडि जमा	21109979		500		
अपचित व्याज	135653075		4173901		
वियुत व्याज	3960565		134543530		
टेलिफोन जमा	465891		465891		
अस्थापि अविम	221305		201055		
पर्यटन अविम	6110852		8633814		
चिकित्सा अविम	0		41242		
	0		238883		
युषिजि जमा	16250		16250		148315066
पूर्वदत्त बीमा	100597				
एनसि पुर्वदत्त बीमा	163036				
	7171426				
	6590040				
	19150				
इतिशेष					
लेखनसामग्री व रसायन	60000				
डाक व्यय	1044				
अनुसूची कुल	106502916				

पृष्ठ # :21					
आय	2004-2005				
	रु	रु	रु	रु	रु
अनुसूचि 12					
विक्रय व विधि से आय				-	-
अनुसूचि 13 अनुदान / आर्थिक सहायता					
विविध गैरयोजना से अनुदान	144944000			99785000	
घटाव मूलधन मूल्य	22699204			46935409	
अनुसूची कुल		122244796			52849591
अनुसूचि 14					
शुल्क व आय					
विश्वविद्यालय आय	43450168			34961442	
जोड आवास कमरा किराया प्राप्त किया	16400				
परीक्षा शुल्क प्राप्त किया	7553355				
जोड आवास स्थापित शुल्क प्राप्त किया	2750				
जोड : बागवानी आय प्राप्त किया	3800				
		51026473			34961442
अनुसूचि 15				0	
ईसमरससफ आय					
जोड व्याज प्राप्त किया	0			0	0

पृष्ठ # :22					
अनुसूचि 16	रु	रु	रु	रु	रु
रायल्टि से आय	0			-	-
अनुसूचि 17					
मिले व्याज					
वीर्ययोजना	714950			2673122	
अनुसूचि 18					
अन्य आय					2673122
अनुसूचि 19					
आय माल मे कमी					
द्वितीय माल	0			-	-
ईति शेष			0		



व्यय	2004-2005		पृष्ठ # 23
अनुसूचि 20	रु	रु	
स्थापित व्यय			रु
वैतन व मजदूरी गैर योजना	107177377		88094843
निवृत्ति फायदा	10062297		9936088
त्रन व पि कलकम्स			4406146
वैतन व मजदूरी योजना लेखा			0
अनुसूचि 21		117239674	102437077
अन्य प्रशासनिक व्यय			
अन्य व्यय गैर योजना से	49824453		40052653
घटाव प्रिव्यिड एमसि	163036		
घटाव प्रिव्यिड इनशुरन्स	100597		
घटाव इतिथोष			
लेखन सामग्री व रसायन	60000		
डाक व्यय	1044		
अनुसूचि 22		49499776	40052653
अनुदान में व्यय			
ईधमससफ लेखा	0		0



पृष्ठ : 25

- विश्वविद्यालय को पांडिचेरी सरकार एवं अंदमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन द्वारा उपहार में दी गई भूमि के मूल्य का आकलन अभी तक नहीं किया गया है इसलिए उनके मूल्य को तुलन पत्र के आस्थियों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। इस भूमि की स्थिति एवं विस्तार निम्न लिखित है:

779 71 एकड़ भूमि पांडिचेरी के कालपेट तथा पिल्लैचवडी गांवों में स्थित है।

4.45 हेक्टेयर भूमि अंदमान व निकोबार द्वीप समूह में बुक्काबाद गांव में स्थित है।

1 55 हेक्टेयर भूमि अंदमान व निकोबार द्वीप समूह में अस्टीनडु गांव में स्थित है।

जो जमीन और भूमि लासेट में स्थित है वो लगभग एक एकड़ की है पांडिचेरी सरकार द्वारा सामूहिक कालेज के लिए यह जमीन 99 साल के लिए किराय पर दी गई है।

तुलन पत्र के जमाखाते में उपकरण खरीदने के लिए दिए गए ऋण पत्र और पत्रिकाओं की खरीद के लिए अंतिम लेखा शीर्ष में दर्शाये गया है

- विश्वविद्यालय को आयकर अधिनियम 1964 की धारा 10 (22) के अंतर्गत आयकर से मुक्त किया गया है।
- सारे निवेश कार्यकारिणी परिषद के यथोचित निदेशों / प्रविनिधि की नियुक्ति और भारत सरकार के निर्देशानुसार किए गए हैं।
- सारी संपत्ति मौजूद है सिवाय उन चुराए गए उपकरणों के जिनका मूल्य 13 4 लाख रूपए है और जिनका मामला अदालत या आवषणाधीन है बाकी सारी संपत्ति मौजूद है और कोई खर्च या अनुपयोगी नहीं है।
- राशि केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग के नाम दर्शायी गई है वह अंदमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पुराने विश्वविद्यालय की चारदीवारी के निर्माण के लिए दी गई थी परन्तु सरकारी अनुदेशों के कारण यह काम रुक गया।

पृष्ठ 1			
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय			
दूरस्थ शिक्षा विद्यालय			
31 मार्च 2005 की तुलना पर			
रूपर्या में			
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष
निगमित पूंजी निधि	1	249353236	316540470
विद्येय प्रयोजन के लिये निधि धर्मस्थ निधि	2	102900617	0
अवशेष व अधिशेष	3	-----	-----
स्वीकृत ऋणों व उधार लेना	4	-----	-----
अस्थानित उधार दायित्व	5	-----	-----
चालू दायित्व व रकद	6	-----	-----
	7	102550	92250
कुल		352356403	316632720
अधिव्यो			
आवधिक उमा	8		
निधेरा	9	15127943	2497889
निधेरा अन्य	10	-----	-----
चालू प्राप्तिव्यो अविम	11	319059928	282459940
विलिय		18168532	31674891
	कुल	352356403	316632720
(हस्त...)			(हस्त...)
(सम वि राजस्वरी)			डा ए के भटनागर
वित्त अधिकारी			कुलपति
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय			पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पॉडिच्चेरी विश्वविद्यालय			पृष्ठ 2
दूरस्थ शिक्षा विद्यालय			
31 मार्च 2005 की तुलन पत्र			
आय		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
विक्रि व विधि में आय	12	-----	-----
अनुदान अधिक सहायता	13	-----	-----
शुल्क ग्राहक	14	44571368	55474467
निवेश से व्याज	15	-----	-----
रायलटि व प्रकाशन से आय	16	-----	-----
निवेश से व्याज	17	23275641	16219977
अन्य आय	18	-----	-----
तीयार माल के वृद्धि	19	-----	-----
कुल (A)		67847009	71694444

		पृष्ठ 3
घटाय		
स्थापित व्यय		
अन्य प्रशासन व्यय	20	3887267 4984317
अनुदान व वायक में व्यय	21	20738146 24505814
निवेश	22	
अवशय	23	
		1560468
		26185881 29490131
कुल (B)		
सामान्य अरक्षित अवरण		
आय व व्यय की तुलना		41661128 42204313
(हस्त...)		(हस्त...)
(सम वि राजस्वदी)		डा ए के भटनागर
विन अगिकारी		कुलपति
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय		पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पांडित्येरी विश्वविद्यालय				
दूरस्थ शिक्षा विद्यालय				
31 मार्च 2005 की तुलन पत्र				
पृष्ठ 04				
अनुसूची 1 कोर पूँजी निधि				
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	रूपयों में	
	2004 - 2005	2003-2004		
वर्ष की शुरु में शेष				
जोड़ कोर व पूँजी निधि में अंशदान	316540470		316540470	
घटावः शेष व्यय डिडिई कारपस निधि में अंतरण किया	7156499			
जोड़ आय व व्यय में अंतरण	100000000			
घटाव : अवशेष भूतवर्ष	41661128			
घटाव- सिपिबल्यूडि के साथ जमा	504861			
इस वर्ष की शेष	15500000			
	249353236		316540470	
अनुसूची 2 अरक्षित व अविशेष				
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	रूपयों में	
	2004 - 2005	2003-2004		
अन्य अविशेष डिडिई कारपस निधि	100000000			
अन्य अविशेष डिडिई कारपस निधि मिले व्याज	1155850			
डिडिई कारपस निधि व्याज प्रोदभूत	1744767			
कुल	102900617			
अनुसूची 3 विशेष निधि धर्मस्य निधि				
			Nil	











	रुपयों में		पृष्ठ 09
	साल वर्ष	पूर्व वर्ष	
	2004 - 2005	2003-2004	
अनुसूची 9 विशेष धर्मस्थ निधि से निवेद्य	Nil	Nil	
	साल वर्ष	पूर्व वर्ष	
	2004 - 2005	2003-2004	
अनुसूची 10 निवेद्य अन्य			
1 अन्य बैंकों में	219059928	282459940	
अन्य आरुबिधे बांड कास्टपस निधि	100000000	0	
कुल	319059928	282459940	

पृष्ठ 10

पांडित्योरी विश्वविद्यालय  
दूरस्थ शिक्षा विद्यालय  
31 मार्च 2005 की तुलना पद

	चालू वर्ष 2004 - 2005	पूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूची 11 चालू अस्तित्वों अग्रिम		
A. चालू अस्तित्वों बीक में रोष		
अनुसूची बीक		
चालू लेखा	6930314	2793797
स्थाई अग्रिम	3500000	3500000
उत्कृष्ट अग्रिम	692949	2320895
पूर्तिभार के अलावा अग्रिम	6347	
व्याज प्रोदभूत	5272840	
व्याज प्रोदभूत	1744767	
सिपिबलियुडि के साथ जमा	15521315	23060199
घटाव सिपिबलियुडि के साथ जमा	15500000	
कुल (A)	18168532	31674891

					पृष्ठ 11
अविन कर्ज व अन्य अस्थिरा					
3 आय प्रोदमृत					
विशेष निधि व धर्मस्थ से निवेद्य					
निवेद्य अन्य		0			
अन्य					
4 दाया प्राप्त किया					
कुल (B)				0	
कुल (A+B)				18168532	



		पृष्ठ 13
पॉलिटेक्नीक शिक्षा विभाग		
दूरस्थ शिक्षा विभाग		
31 मार्च 2005 की तुलना पर		
	चालू वर्ष	रकम रुपये में
	2004-2005	मनुपूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूचि 14 / शुल्क वाहक		
1 प्रवेश शुल्क		
2 वार्षिक शुल्क / शुल्क वाहक	30919764	46811064
3 टिक्केटिंग प्रोग्राम	12538034	8663403
4 परमार्शदाता शुल्क		
5 अन्य विशेष	8270069	
घटाव व्यय का मूल्य	7156499	
कुल	44571368	55474467
अनुसूचि 15 आय व निवेश	Nil	Nil
अनुसूचि 16 दायित्व प्रकाशन आदि से आय	Nil	Nil



पृष्ठ 14			
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय			
दूरस्थ शिक्षा विद्यालय			
31 मार्च 2005 की आय व व्यय का विवरण			
		रकम रूपर्या में	
		चालू वर्ष	भूतपूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 17 अर्जित व्याज			
1 अवधि जमा में		17850230	16219977
2 अपवाद लेखा में		46053	0
3 कर्ज के लिये व्याज व अन्य प्राप्त		106518	
4 प्राप्त किये व्याज आवधिक जमा में		5272840	
	कुल	23275641	16219977

			पृष्ठ 15
अनुसूचि 18 अन्य आय		रकम रुपयों में	
विविध आय		0	0
	कुल	0	0
अनुसूचि 19			
माल में वृद्धि / कमी देयार हुआ माल			
व काम आम की ओर		Nil	Nil

		पृष्ठ 16
		रकम रुपयाँ में
	चालू वर्ष	भूतपूर्व वर्ष
	2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 20 स्थापना व्यय		
अ वेतन व मजदूरी	3837927	4984317
भत्ता व लाभांश	49340	
	कुल	4984317
अनुसूचि 21 अन्य प्रशासनिक व्यय व्यय		
	2004-2005	2003-2004
अ विधित व शक्ति	0	0
आ चलते बाहनों व अनुदक्षण	86607	69629
इ डाकव्यय दूरभाषा व संचार खर्च	1276991	2832494

		पृष्ठ 17
		रकम रुपयाँ में
ई छपे व सामग्रियाँ	2140834	-5572793
उ याता व वानियनसस	48782	0
ऊ विज्ञापन व प्रकाशन	4520403	5283163
ए छात्रवृत्ति	7460	28405
ऐ अन्य आकस्मिकता	86874	9074
ओ उपकरण देखपाल करना	22836	59053
औ परीक्षा चलाना	8192251	5060970
अ विसिपि चलाना	4355108	5590233
	कुल	24505814

			पृष्ठ 18
			रकम रूप्यों में
		चालू वर्ष	भूतपूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 22 अनुदान में व्यय		Nil	Nil
		चालू वर्ष	भूतपूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 23 व्याज		Nil	Nil

			पृष्ठ 01
पांडित्येयी विश्वविद्यालय			
समुदायिक महाविद्यालय			
31 मार्च 2005 का तुलन पत्र			
			रकम रुपयाँ में
कोर मूल नीधि व दायित्व	अनुसूचि	चालू वर्ष 2004-2005	सिले वर्ष 2003-2004
कोर मूल नीधि व दायित्व	1	30868975	27793276
अचक्षित व अधिशेष	2	-----	-----
उद्दिष्ट धर्मस्व निधि	3	-----	-----
स्वीकृति ऋणों व उधार लेना	4	-----	-----
अचक्षित व उधार	5	-----	-----
डेफरड उधार दायित्व	6	-----	-----
चालू दायित्व व उपबंध	7	644420	613720
कुल		31513395	28406996

अस्तित्व			पृष्ठ 02
आवधिक अस्तित्व	8	9829131	9390616
उद्दिष्ट से निवेश	9	-----	-----
निवेश अन्य	10	19783000	18785000
चालू अस्तित्वों कर्ज अविम आदि	11	1899264	231380
फूटकर व्यय		-----	-----
कुल		31513395	28406996
(हस्त...)			(हस्त...)
(एम वि योनेस्वरी)		डा ए के बटनागर	
विच अधिकारी		कुलपति	
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय		पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय	

[illegible]





पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय  
समृद्धयिक महाविद्यालय  
31 मार्च 2005 वृत्तन पत्र का अनुसूची

अनुसूची 1 कोर मूल्यन	रकम रूपयों में	
	चालास वर्ष 2004 - 2005	विस्तृत वर्ष 2003-2004
इस वर्ष की शुरु में शेष जोड़ कोर /मूल्यनर्म अंशदान जोड़ आय व व्यय लेख का ट्रान्सफर इस वर्ष की अंत में शेष	1806382	27793276
	2579005	
		4385387
		1309688
		30868975
		27793276
अनुसूची 2 कोर मूल्यन		
1 पूंजी अरक्षित	---	---
2 पुनर्मूल्यन अरक्षित	---	---
3 विशेष अरक्षित	---	---
4 सामान्य अरक्षित	---	---
अनुसूची 3 उद्विष्ट धर्मस्थ निधि	Nil	---

पृष्ठ 06  
रूपर्याँ में

	चालू वर्ष 2004 - 2005	पिछले वर्ष 2003-2004	
अनूसूचि 4 चरखित ऋरण व उघार रानियाँ		---	---
अनूसूचि 5 अरखित ऋरण व अपुरोज्य		---	---
अनूसूचि 6 अगस्थानित ऋरण		---	---

पांडिचेरी विश्वविद्यालय				पृष्ठ 07
समूदायिक महाविद्यालय				
31 मार्च 2005 तुलन पत्र का अनुसूची				रुपयों में
	चालू वर्ष 2004 - 2005	पिछले वर्ष 2003-2004		
अनुसूची 7 चालू वार्षिक व रसद				
सावधान जमा	613720	535820		
जोड प्राप्ति	274600	888320	268600	804420
घटाव धन वापसि	243900	243900	190700	190700
कुल		644420		613720
बि रसद	-----	-----	-----	-----
कुल	-----	-----	-----	-----
कुल		644420		613720

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय समुदायिक महाविद्यालय 31 मार्च 2005 बजट पत्र का अनुसूची				Page - 08
अनुसूची 7 चालू अस्तित्वों ऋणों व अग्रिम	चालू वर्ष 2004 - 2005	पिछले वर्ष 2003-2004	रुपयों में	
ए चालू अस्तित्वों				
बैंक शेष				
अनुसूची बैंक के साथ				
चालू खाता	72002	198552		
जमा लेखा				
बचत लेखा	1224567	1296569	31828	231380
कुल		1296569		19016380
बि ऋणों अग्रिमों व अन्य सस्तायें				
3 आय उचित				
3 निवेश से				
अ विशेष प्रयोजन के लिए निधि				
आ निवेश अन्य	602695			
ई अन्य				
4 दाबा वापस मिलना				
कुल (B)		602695		
कुल (A+B)		1899264		

पॉस्विचेरी विश्वविद्यालय												पृष्ठ 09
समुदायिक महाविद्यालय												
31 मार्च 2005 की तुलना पर												
अनुसूचि 8												
	कुल अस्थिरा				अवस्थ				शुद्ध जोड़			
	इस वर्ष की शुरु	इस वर्ष में	इस वर्ष की	इस वर्ष की शुरु	इस वर्ष में	इस वर्ष की	इस वर्ष की	इस वर्ष की	इस वर्ष की	इस वर्ष की	इस वर्ष की	मूल वर्ष
	में मूल्य/	रुपि	कटीती	में	रुपि	कटीती	में	रुपि	कटीती	में	रुपि	मूल वर्ष
	मूलयांकन			मूलयांकन								मूल वर्ष
1 भूमि												
अ मुक्तभूमि												
आ पट्टा												
2 भवन	1380485	190205	75579	1495111	19020	7558	138049	19020	7558	149511	1345600	1380485
पूर्ण स्वामित्व भूमि												
पट्टा भूमि												
मालिक भूमि												
अधिरचना भूमि												
4 वाहनों												
5 उपकरणों जुड़नार												
6 कार्यालय उपकरण	203652	0	0	203652	40730	0	40730	0	0	40730	162922	203652
7 संगणक फरिफरलस	646792	43800		690592	97019	6570	103589	0	0	103589	587003	646792
8 वैधुल संस्थापन	2027549	70362	0	2097911	506887	17591	524478	0	0	524478	1573433	2027549

[illegible]

		पृष्ठ 11
	रूप्यों में	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2004 - 2005	2003-2004
	Nil	Nil
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2004-2005	2003-2004
अनुसूची 10 निवेद्य अन्य		
1. अन्य बैंकों में		
अन्य आदित्ये बांड कायस निधि	19785000	18785000



पृष्ठ 12			
<p>पांडित्येरी विश्वविद्यालय समुदायिक महाविद्यालय 31 मार्च 2005 की तुलन पत्र</p>			
	चालू वर्ष 2004 - 2005	पूर्व वर्ष 2003-2004	रूप्यों में
अनुसूची 11 चालू अस्तित्वों अग्रिम			
A. चालू अस्तित्वों			
बैंक में शेष	72002	199552	
अनुसूची बैंक			
चालू लेखा	1224567	31828	231380
कुल (A)	1296569		19016380

अग्रिम कर्ज व अन्य अस्तित्वों				पृष्ठ 18
3 आय प्रोदमू				
विशेष निधि व धर्मस्व से निवेश				
निवेश न्य	602695			
अन्य				
4 दावा प्राप्त किया				
कुल (B)		602695		
कुल (A+B)		1899264		

			पृष्ठ 14
			रूपयों में
		चालू वर्ष 2004 - 2005	पूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूची 12 चालू अस्तियों अग्रिम	Nil		Nil
		चालू वर्ष 2004 - 2005	पूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूची 13 अनुदान सबदस्तस	Nil		Nil

पंडितचंदी विश्वविद्यालय  
समुदायिक महाविद्यालय  
31 मार्च 2005 की तुलन पत्र पृष्ठ 15

	चालू वर्ष 2004-2005	रुपयों में पूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूचि 14 / शुल्क ग्राहक		
1 प्रवेश शुल्क		
2 वार्षिक शुल्क / शुल्क ग्राहक	6153357	5967924
3 टिबिनिंग प्रोग्राम		
4 परमार्थदाता शुल्क		
5 अन्य विशेष		
परीक्षा शुल्क	77350	68880
घटाव व्यय का मूल्य	7806382	
	4424325	6036804
कुल व्यय से आय		
अनुसूचि 15 आय व निवेश	Nil	Nil
अनुसूचि 16 रायल्टि प्रकाशन आदि से आय	Nil	Nil

पृष्ठ 16

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय  
समुदायिक महाविद्यालय  
31 मार्च 2005 की तुलन पत्र

			रुपयों में
		चालू वर्ष 2004-2005	पूर्व वर्ष 2003-2004
अनुसूचि 17 अर्जित व्याज			
1 अवधि जमा में		696399	829684
2 अपवाद लेखा में			
3 कर्ज के लिए व्याज व अन्य प्राप्त			
4 प्राप्त किये व्याज आवधिक जमा में		8989	8434
		602695	
कुल		1308083	838118

		पृष्ठ 17
		रुपयों में
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 18 अन्य आय		
विविध आय	506479	678319
	कुल	678319
अनुसूचि 19		
मान में रुबिद / कमी देयार हुआ मान		
य काम मान की ओर	Nil	Nil

			पृष्ठ 18
		रूपयों में	
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 20 स्थापना व्यय			
अ वेतन व मजदूरी	3064614		2516703
भत्ता व लाभांश	4934		-----
	कुल	3069548	2516703
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
		2004-2005	2003-2004
अनुसूचि 21 अन्य प्रशासनिक व्यय व्यय			
अ विद्युत व शक्ति	32217		39237
आ चलते वाहनों व अनुरक्षण	55396		56346
इ डाकघर दूरभाष व संचार खर्च	45910		49584

		पृष्ठ 19
		रुपयों में
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2004-2005	2003-2004
ई छपे व सामग्रियाँ	28812	83129
उ याता व वानव्यनसस	1192	6849
ऊ पत्रिकार्य	1170	9132
ॠ विज्ञापन व प्रकाशन	88205	43171
ॡ छविव्यक्ति	126831	54136
ओ अन्य आकस्मिकता	86209	53331
औ उपकरण देखपाल करना	10080	32585
अ परीक्षा चलाना	56133	31023
अः विसिषि चलाना		10060
कुल	532155	468583



पृष्ठ 20		
	रूपों में	
	पूर्व वर्ष 2003-2004	
	चालू वर्ष 2004-2005	
	Nil	Nil
अनुसूचि 22 अनुदान में व्यय		
	पूर्व वर्ष 2003-2004	
	चालू वर्ष 2004-2005	
	Nil	Nil
अनुसूचि 23 व्यय		

### लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्ति और भुगतान के विवरण एवं आय और व्यय के लेखे तथा 31 मार्च 2005 के तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन जिसमें अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा अभिमत शामिल थे :

- ❖ लेखाओं के सामान्य प्रपत्र में विश्व विद्यालय के स्व-वित्तीय संस्थानों के शेष को समाविष्ट नहीं किया गया। पैरा (2.1)
- ❖ "चालू परिसंपत्तियों" के रूप में अस्थाई अग्रिमों को लगातार दिखाना—"ऋण एवं अग्रिम" समाशोधन किए बिना और राजस्व को प्रभारित करना। (पैरा 2.2.2.1)
- ❖ परिसंपत्तियों से रुपये 48.55 लाख का निवेश एवं नकद शेष अपवर्जन। (पैरा 2.2.2.2)
- ❖ योजना की परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास एवं उद्दिष्ट विशेष निधि योजना को प्रभारित किया गया। (पैरा 3.2.1)

अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों एवं संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः

स्थान- चेन्नै -18  
दिनांक-31.01.2006

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)  
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी

## RESERVE BANK OF INDIA

The 22nd June 2006

DBOD. No. Ret.BC. 90/12.01.001/2005-2006—Consequent upon the amendment carried out to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the statutory minimum Cash Reserve Ratio (CRR) requirement of 3 per cent of the total demand and time liabilities no longer exists in respect of Scheduled Commercial Banks with effect from June 22, 2006. Further, in exercise of the powers conferred under the amended sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and having regard to the needs of securing monetary stability in the country, the Reserve Bank of India hereby notifies that every Scheduled Commercial Bank should continue to maintain a Cash Reserve Ratio of 5 per cent of its total demand and time liabilities subject to the exemptions as envisaged in Notification No. DBOD. Ret.BC.92/12.01.001/2005-2006 dated June 22, 2006. This is in partial modification of the notification DBOD. No. Ret.BC.40/12.01.001/2004-2005 dated September 11, 2004.

ANAND SINHA  
Executive Director

DBOD No. BC.92/12.01.001/2005-2006—Consequent upon the amendment to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the statutory minimum Cash Reserve Ratio (CRR) requirement of 3 per cent of the total demand and time liabilities in respect of Scheduled Commercial Banks no longer exists with effect from June 22, 2006. Further, consequent upon the amendment to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank having regard to the needs of securing monetary stability in the country, can prescribe the Cash Reserve Ratio (CRR) for scheduled banks without any floor rate or ceiling rate. In terms of these powers, Reserve Bank of India has decided to continue with the status quo on the rate of CRR required to be maintained by Scheduled Commercial Banks at 5 per cent of their demand and time liabilities. In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India hereby exempts every Scheduled Commercial Bank from the maintenance of CRR at 5 per cent on the following liabilities with effect from June 22, 2006.

- (i) Liabilities to the banking system in India as computed under Clause (d) of the Explanation to sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934;
- (ii) Credit balances in ACU (US \$) Accounts;
- (iii) Transactions in Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) with Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL); and
- (iv) Demand and Time Liabilities in respect of their Offshore Banking Units (OBUs).

ANAND SINHA  
Executive Director

## DEPARTMENT OF GOVERNMENT &amp; BANK ACCOUNTS

## CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, dated the 27th June 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended May 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

Nil

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

Byculla, Mumbai Circle9% Relief Bond 1999 (Demat) GPH

BCN 007344 to BCN 007348	Rs. 1,00,000/- x5	Jayesh Vasant Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	2.9.1999	Jayesh Vasant Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	06.25.95 2/9/2005
--------------------------	-------------------	---	----------	---	----------------------

New Delhi Circle7.5% GOI Loan 2010

DH-000373	Rs. 1,00,000/-	Federal Bank Ltd.	12.11.81	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000329	Rs. 1,85,000/-	-do-	12.05.81	-do-	-do-

7% GOI Loan 2009

DH-000247	Rs.27,000/-	Vinod Kumar & Co.	25.05.81	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000248	Rs.20,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000249	Rs.6,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

9% GOI Loan-2013

DH-000184	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	24.05.83	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
-----------	----------------	----------------	----------	---	------------------------

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
DH-000185	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	24.05.83	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000255	Rs. 50,000/-	Federal Bank Ltd.	24.11.83	-do-	-do-
DH-000256	Rs. 45,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

New Delhi Circle10% GOI Loan-2014

DH-000212	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	30.11.84	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000213	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000214	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

10.5% GOI Loan-2014

DH-000105	Rs. 2,00,000/-	-do-	29.04.85	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
-----------	----------------	------	----------	---	------------------------

2% Relief Bond 1992

DHC-000736	Rs. 5,00,000/-	Ashok Garg Babita Garg and Satpal Garg (Any one or Survivor)	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000737	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000738	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000739	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DH-000740	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000741	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000742	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006

J.M. BAVA  
Asstt. Manager

## MINISTRY OF LABOUR

## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Mumbai-51, the 14th June 2006

No. ACC/WZ/30J/DLI/Exemption/2006/PT-I/235—S.O.  
Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/CPFC Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

## Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption
1.	Initial Exemption	M/s Anwesha Comtech Engineering P. Ltd. GJ/BD/21027, E-6, Kalpavruksh, Opp: GEB Sub-Station, Gotri Road, Vadodara.	1.3.00–28.2.03 1.3.03–28.2.06
2.	Initial Exemption	M/s Elcen Machines Pvt. Ltd., 270, GIDC Estate, Marpura, Vadodara-390 010 GJ/BD/10502	1.11.00–31.10.03 1.11.03–31.10.06

## Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P. F. Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA

Additional Central P. F. Commissioner,  
For and on behalf of Central P. F. Commissioner,  
New Delhi

### BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002

### CORRIGENDUM

The date of notification regarding exemption from examination for applicants holding recognised foreign degrees in Law published by the Bar Council of India in the Gazette of India Part III Section 4 dated 6.5.2006 which appears at page No. 1286 in Hindi Section, may be read as "21.2.2005" instead of "21.2.200" and the date "21.2.2005" be read as the date of notification in English appeared on page No. 1406.

S. RADHAKRISHNAN  
Secretary

### ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

Of

Dargah Khwaja Saheb, (R.A.), Ajmer

(2005-2006)

1. It is my proud privilege to present my report on the Administration of Dargah Khwaja Saheb for the year 2005-2006.
2. In the beginning of the year under report the Dargah Committee consisted of the following :—
  - i. Janab Peerzada Shibli Qasim President
  - ii. Janab Syed Abdul Bari Chishty Vice-President
  - iii. Janab Prof. Akhtarul Wasey Member
  - iv. Janab Haji Inayat Hussain Qureshi Member
  - v. Janab Abdul Kader Wadiwala Member
  - vi. Janab Shokat Ali Ansari Member
  - vii. Janab Mansoor Ali "Lalli" Member
  - viii. Janab Abdul Waheed Khan Member
  - ix. Janab Abid Ali Kadri Member

3. Janab Peerzada Shibli Qasim Saheb and Janab Haji Syed Abdul Bari Chishty were appointed as President and Vice-President respectively for the year 2005-2006.

- 3.1 Janab A.Q. Wadiwala Saheb, Member, Dargah Committee, Dargah Khwaja Saheb Ajmer has submitted his resignation to the Ministry of Social Justice & Empowerment on 11 October, 2005 but it has not yet been accepted by the Ministry.

- 3.2 Term of Janab Prof. Akhtarul Wasey Saheb expired on 24th December, 2005. New nomination of member of Dargah Committee has not yet been made.

4. Dargah Finances :—Following is the statement of Income, Expenditure and savings for the year under report. Figures of the last year are also noted below to give a comparative glimpse :

S. Head No.	2004-2005	2005-2006
1. Opening Balance as in the beginning of the year	399983	23202
2. Income during the year (+)	18445085	21166440
<b>Total</b>	<b>18845068</b>	<b>21189642</b>
3. Expenditure during year (—)	18821866	20785298
4. Closing Balance in the end of the year	23202	404344
5. Reserve Fund	4898688	6250000

Following expenditure particularly on Charitable and Welfare activities during the year under report :

S. Head No.	2004-2005	2005-2006
1. Langar & Ramzan Langar	371254	490828
2. Free Medicine	141324	134292
3. Tajheej-O-Takfeen (Burial of unclaimed dead bodies)	131481	152231
4. Medical Assistance	401877	314896
5. Stipend to widows	495973	530947
6. Help to Needy	157420	170120
7. Educational Assistance	110550	94780
8. Darul Uloom	212973	485688
9. Khwaja Model School	870278	1050387
10. Computer Centre	243845	252913
11. School in Rural areas	19819	21222
12. Zaqat Expenditure	27936	48671
13. Pay to staff	7232909	7801299
<b>Total Expenditure</b>	<b>10417639</b>	<b>11548274</b>

5. Daily Langar and Ramzan Langar :—Langar (Cooked Food) was distributed twice daily to all without discrimination of caste & creed. A sum of Rs. 490828/- lacs were spent on this account. 276 Qt. 94 Kg. 800 gram

wheat and 64 Qt. 04 Kg. 400 gram Barley was purchased for langar.

6. 450 pors and needy rozedar have been given two times meals daily during the Holy month of Ramzan. Besides this Iftari including fruits Khazoor (dates) etc. were also arranged for Central Jail prisoners who observed Roza. A sum of Rs. 1,90,000/- was spent on this purpose by a devotee of Khwaja Saheb. Langar cooked by M/s Gharib Nawaz Restaurant free of cost. M/s Gharib Nawaz Restaurant is doing this work since last 10 years.

7. Medical Facilities :—Unani and Homoeopathic dispensaries are being managed by the Dargah Committee. A sum of Rs. 3,14,896/- lacs are being spent on the purchase of medicines during the under report.

About [22543 (Homoeopathic) + 36852 (Unani Dawakhana) = total 59395] 59395 patients were treated.

8. Educational Programme :—

- 8.1 Darul Uloom Moinia Usmaniya :—A sum of Rs. 4,85,688/- lacs were spent on the Darul Uloom 80 students appeared in the examination and 70 were declared passed on 15th September 2005 corresponding to 10th Shahaban 1426 Hijri.

At present 56 students from out side Rajasthan and 18 local student are studying as detailed under :  
Total students are 74.

S.No.	Class	No. of Student
1.	Khamisa	2
2.	Rabiya	5
3.	Saniya	3
4.	Oola	4
5.	Aidadiya	2
6.	Tehtaniya	25
7.	Hifz	33
Total No. of Students		74

- 8.2 Khwaja Model School :—A sum of Rs. 10,50,387/- lacs were spent on Khwaja Model School. There are 283 students in school in various classes.

- 8.3 Gharib Nawaz Computer Centre :—A computer training centre is run by the Dargah Committee at Civil Lines, Ajmer with the association of National Council for promotion of Urdu Language, Ministry of Human Resource Development. (Education Deptt.), Govt. of India, New Delhi. At present we have 17 computer sets are in the center. 65 students are learning at the Center, where Indian Education Company from New Delhi deputed 2 instructors.

38 students appeared in the examination during the year 2004-2005 and 18 students have been declared successful 20 students got supplementary.

9. Annual Urs :—Annual Urs of Hazrat Khwaja Moinuddin Chishty (RA) was celebrated from 1st Rajab 1426 Hijri corresponding to 8th August 2005. Qul ceremony was held on 13th August 2005 i.e. 6th Rajab 1426 A.H. On 9th Rajab 1426 Hijri i.e. 16th August 2005 whole Dargah Shaif was washed and cleaned, rose water was sprinkled by the Zaireen. About 7 lacs pilgrims gathered during Urs.

On 11th August 2005 a Seminar & Mushyara on Life & Teachings of Khwaja Gharib Nawaz (R.A.) was held at Vishram Sthali, Ana Sagar after 9.30 P.M.. About five thousand people gathered. Expenditure born by a devotee of Khwaja Saheb. Special light decoration was done by a devotee of Khwaja Saheb in Dargah Premises second time.

Elaborate arrangements were made by the Distt. Administration and the Dargah management to provide facilities to the pilgrims. The telecommunication Department, Rajasthan State Roadways Transport Corporation, Post offices, Railways opened their special trains counters for the pilgrims. Identity cards were given to pilgrims as per past practice for their safe guard.

10. Rituals of Dargah Sharif :—The Mehfil of Annual Urs of Khwaja Saheb, Khwaja Usman Harooni (R.A.) and other Mehfils of Jumerat (Thursday) Chati Sharif, Chaudveen Sharif were performed properly. The Airas of Khulfa-E-Rashiden, Muharram, Eid Miladunnabi etc. were observed solemnly. Arrangements for prayers of Eiden were also made at Eidgah and Dargah Sharif.

11. Opening of Chilla of Baba Farida Ganj-E-Sakar :—Chilla of Baba Farid Ganj-E-Sakar was opened for 72 hrs on 3rd February 2006 i.e. 4th Muharram 1427 Hijri. About 25 to 30 thousand pilgrims visited for zairat.

12. Audit of Accounts of Dargah Khwaja Saheb :—Audit of Accounts of Dargah Khwaja Saheb for the year 2003-2004 has been carried out by AG team from Jaipur from 12th December, 2005 to 24th December, 2005. There has not been any serious objection.

13. Increase in Rental/Licensees Income :—An increase of Rs. 29.09 lacs per annum has been observed in rental and Licensees Income of Dargah Sharif during the year under report. An amount of Rs. 81.79 lacs per annum also observed in the Income of Guest House.

- 13.1 During the year under report 17 cases pertains to the Tenancy and 13 other cases were decided in Dargah's favour.

14. A.C. of Astana Sharif of Khwaja Saheb :—Approximately an amount of Rs. 1 lac. per month was borne by the Dargah Committee against electricity charges of A.C. in Astana Sharif of Dargah.

15. Supply of Rose Flowers, Candles and Sandal :—As per past practice and tradition following expenditures were



incurred for presenting flowers and Sandal paste on Mazar-E-Aqadas and candles for lighting the tomb:—

S.No.	Item	Amount Spent (Rs.)
1.	Rose Flowers	•1,99,992/-
2.	Sandal	1,99,546/-
3.	Candles	76,357/-

#### 16. Repairs and Maintenance :—

16.1 Following work has been carried out during the year under report :—

S.No.	Item	Amount Spent Rs. in (Lacs)
1.	Properties of DKS in City	87,730/-
2.	Maintenance of Guest House	4,52,837/-
3.	Maintenance of Dargah Apts.	4,620/-
4.	Maintenance of Dargah Sharif	1,97,860/-

16.2 The work of cleaning of marble of Shahjahani mosque is in hand which is carried out by devotee of Hazrat Khwaja Saheb.

#### 17. Welfare and Financial Assistance :—The following major expenses on welfare and social activities have been incurred during the year under report :—

17.1 Stipend to Widows :—A sum of Rs. 5,30,947/- lacs was distributed to widows, needy persons during the year under report.

17.2 Tajheej-O-Takfeen :—A sum of Rs. 1,52,231/- lacs has been spent on the burial of unclaimed dead bodies.

17.3 Aid to poor & needy :—Rs. 1,70,120/- thousand has been spent in giving financial help to the above category of needy persons.

17.4 Aid to Mohammed Ali Memorial Sr. Secondary School, Beawar :—Rs. 24,000/- has been given to the said school.

17.5 Aid to Dargah Sharif Sarwar :—Rs. 6,000/- per annum has been given to the Dargah Sarwar Sharif.

17.6 Scholarship to Medical and Engineering students :—An amount of Rs. 64,500/- has been incurred during the year under report.

18. Meetings of Dargah Committee :—The Dargah Committee held 4 meetings in connection with the affairs of Dargah Sharif. Two meetings of Tenancy Sub-Committee also held during the year under review.

19. Visit to V.V.I.Ps./V.I.P.—The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded :—

1. Shri General Parvez Musharraf, President Republic of Pakistan.

2. Shri Dr. Prasanna Kumar, Joint Secretary to Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi.

3. Shri M.N. Verma, Chief Commissioner Income Tax, Jaipur.

4. Delegation of Advocates from Pakistan.

5. Shri Amar Singh, M.P.

6. Dr. A.P.J. Abdul Kalam Saheb, President, Republic of India.

7. Delegation of Pak Zaireen (Pilgrims).

8. Janab Kamal Shah, Home Secretary, Pakistan.

9. Shri Yunus Khan Saheb, Transport and Sports Minister, Govt. of Rajasthan.

10. Janab Habib Alam Saheb, Minister of Industries Development, Uttar Pradesh Government.

11. Smt. Sheikh Hasina, Former Prime Minister of Bangladesh.

12. Shri Tarlochan Singh, President, National Minority Commission, Govt. of India.

13. Shri Mohammed Jahangeer Alam, Director General, Bangladesh Rifles.

14. Shri Fakhruddin Saheb, Chief Justice, Chattisgarh High Court.

15. Smt. Nazma Hepatullah, M.P. (Rajya Sabha).

16. Shri Murari Bapu.

17. Shri Sidhram Sinha, Minister of State for Home, Govt. of Maharashtra.

18. Shri Syed Khalid Hussain, Principal Secretary, Pakistan High Commission.

19. Shri Praful Patel Saheb, State Minister for Civil Aviation, Govt. of India.

20. Shri Sushil Kumar Shinde, Governor, Andhra Pradesh.

21. Shri M.A. Fatmi, Minister of State for Human Resource Development, Govt. of India.

22. Shri Dr. Suhail Rudra, Dy Speaker, Tripura Legislative Assembly.

23. Shri Mohd. Miyan Sumro, Chairman, Pakistan Senior Senate.

24. Smt. Moazzal Masoor, Queen of Qatar.

25. Shri Salim Ahmed, Chief Sachetak, Govt. of Karnatak.

26. Shri Dr. Ramesh Datta Sharma, President, Punjab Legislative Assembly.

27. Shri Ahmed Rashid Sherwani, Member, National Minority Commission, New Delhi.

28. Shri Naveen V. Chawla, Central Election Commissioner.

29. Smt. Girija Vyas, President, National Women Commission.

30. High Level Delegation, Afghanistan.

31. Shri Amanullah Khan, Minister for Petroleum and Natural Resource, Govt. of Pakistan.

32. Shri Syed Shahnawaz Hussain, Former Central Minister, Govt. of India.

33. Shri K. Rehman Khan, Dy. Speaker, Rajya Sabha.

20. At last I thank the President, Vice-President and Members of the Committee for their valuable guidance extended to me for solving Administrative and other problems related to Dargah Sharif.

Insha Allah, I will try my best to improve the Dargah Finances, Safeguards Endowments and provide facilities for zaireen with the guidance of the Dargah Committee.

ABDUL ALEEM  
Nazim,  
Dargah Committee,  
Dargah Khwaja Saheb,  
Ajmer

#### AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF DARGAH KHWAJA SAHEB, AJMER FOR THE YEAR 2003-2004

##### 1. INTRODUCTORY

1.1 The Dargah Khwaja Saheb, Act was passed by the Parliament in 1955 for proper administration of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer (Dargah). The administration, control and management of Dargah Endowment is vested in the Dargah Committee, which exercises its functions through 'Nazim' appointed by the Government of India in consultation with the Committee.

1.2 Section 19(2) of the Act ibid envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah which together with the accounts of the Dargah and the report of auditor thereon, shall be published in the Official Gazette of Government of India. The annual administrative report of the Dargah for the year 2003-2004 alongwith audit report for the year 2002-2003 has been published (5-11 February 2005) in Official Gazette of Govt. of India.

1.3 The audit of accounts of the Dargah has been entrusted under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of Services) Act, 1971 for a period of 5 years from 2003-04 to 2007-08.

#### COMMENTS ON ACCOUNTS

##### 2. BALANCE SHEET

##### 2.1 Liabilities

##### 2.1.1 Earmarked fund

(a) This is understated by Rs. 2.38 lakh being unspent balance of donation (Rs. 18.10 lakh) received for construction work during 2001-02 to 2003-04 but not included in the earmarked fund.

The Dargah stated (April 2006) that donations received from Member of Parliament (M.P.)/Member of Legislature Assembly (M.L.A.) funds were shown in the Income & Expenditure Account. The reply is not tenable as these donations were received for specific capital work and as such the same should have been included in the earmarked fund.

(b) This is understated by Rs. 43.54 lakh being liability of the Contributory Provident Fund (C.P.F.), not incorporated in the accounts.

The Dargah stated (April 2006) that Accounts of Contributory Provident Fund (C.P.F.) are being maintained separately & that its Balance Sheet is attached with Accounts. The reply is not tenable as the liability of C.P.F. should be incorporated in Dargah's main Balance Sheet.

##### 2.1.2 Corpus Fund Rs. 3.42 crore

This is understated by Rs. 3.85 lakh, being balance amount of computer fee received from students from Gharib Nawaz Computer Centre but not included in the corpus fund.

The Dargah stated (April 2006) that computer fee was being shown as income in the accounts. The reply is not tenable as National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) order (Nov. 99) stipulates that the balance fee would form a corpus, to be used for technological upgradation.

##### 2.2 Assets

##### 2.2.1 Current Assets, Loans and advances, Rs. 30.71 lakh.

This is understated by Rs. 2.78 lakh being closing stock of Steel and Cement valuing Rs. 2.66 lakh and hostel raw material worth Rs. 0.12 lakh incorrectly included in fixed assets & expenditure respectively instead of showing the same under the head current assets.

The Dargah stated (April 2006) that Steel & Cement purchased for construction were booked as expenditure as per the Mercantile system of Accounting. The reply is not tenable as capitalisation of entire amount of Cement & Steel in the year of purchase is incorrect & not as per the principles of accounting. Further the closing stock of the same should have been shown under the head current Assets.

### 3. Income and Expenditure Account

#### 3.1 Other income Rs. 1.39 crore.

This is understated by Rs. 0.20 lakh being donation received in kind and utilized during the year 2003-2004 but not included in the accounts.

The Dargah stated (April 2006) that donation received in kind are not shown as Income but are capitalised in accounts. The reply is not tenable as Donations received in kind & transactions related to it should appear in the Accounts. Further the cement (Rs. 0.18 lakh) & Unani Medicine (Rs. 0.02 lakh) have also not been capitalised in Accounts of the year 2003-04.

### 4. General

#### 4.1 Amount shown under the following heads has not been incorporated in the correct schedules.

S. No.	Particular of Head	Amount Rs. in lakh	Incorrect Schedule	Correct Schedule
1.	Rent income of Guest House	78.51	Sch-18	Sch-15
2.	Computer fees received	1.02	Sch-18	Sch-14
3.	Interest on CWC loan	2.95	Sch-21	Sch-23
4.	Security Deposits	0.26	Sch-4	Sch-7
5.	CWC loan(Unsecured)	43.05	Sch-4	Sch-5
6.	Rent received in advance	7.18	Sch-5	Sch-7

The Dargah stated (April 2006) that the form of financial statement suggested by the new format was not applicable on it. The reply is not tenable as in absence of approval of its existing format of accounts by the Government, the Dargah is required to compile its accounts in the new format suggested by Ministry of Finance, Controller General of Accounts, New Delhi.

#### 4.2 Increase in the valuation of Gold and Silver amounting to Rs. 1.02 lakh should have been shown under the head 'Revaluation reserve' instead of "Capital/Corpus Fund".

The Dargah stated (April 2006) that increase in valuation of Gold & Silver were being shown in capital fund. The reply is not tenable as an upward revision due to changing prices, in value of fixed assets otherwise shown at historical cost, should be shown under the head "Revaluation reserve".

#### 4.3 Rs. 0.88 lakh, on account of Annuity, and Rs. 4.47 lakh on account of income due but not received shown under the head "Current Assets, Loans and advances" has not been got confirmed from the concerned debtors.

The Dargah stated (April 2006) that Annuity due has been subsequently received & income due but not received has been shown as income. The reply is not tenable as both the above amounts have been shown under the head "Current Assets, Loans and advances". Further the balances were not got confirmed from the concerned debtors.

#### 4.4 (a) Rs. 4.45 lakh received on account of interest appearing in Income and Expenditure Account should be clubbed with interest amount of Rs. 0.14 lakh received on saving bank accounts

The Dargah stated (April 2006) that the same has been clubbed in accounts of the year 2004-05.

#### (b) In schedule-21 under 'Other (specify)' expense: sub-head, Rs. 65.46 lakh have been shown which is wrong. It is actually brought out figure of the previous page and should take place on the top of the sheet.

The Dargah stated (April 2006) that the form of financial statement suggested by the new format was not applicable on it. The reply not being specific is not acceptable.

#### 4.5 Following shortcomings were noticed in the preparation of schedule of fixed assets :—

#### (i) The basis of rate of depreciation charged on each group of movable assets has not been disclosed in a separate schedule or notes on account. Only net figure of movable asset after charge of depreciation is appearing in the schedule.

The Dargah stated (April 2006) that the percent of depreciation has been mentioned in the statement of movable assets. The reply is not tenable as the basis of rate of depreciation charged has not been disclosed in the note on account or a separate schedule. Further only net figure of movable assets is appearing in Schedule 8 of the Balance Sheet.

#### (ii) Depreciation has not been charged on immovable assets i.e. "Building". Further, only net figure of Rs. 20.41 lakh after addition (Rs. 31.07 lakh) & deduction (Rs. 10.66 lakh) of assets during the year is appearing under the column "Additions during the year".

The Dargah stated (April 2006) that being charitable institution depreciation was not provided on building. The reply is not tenable.

as in absence of depreciation on fixed assets, the accounts do not depict the correct position of assets of the Dargah.

- (iii) Rs. 15.00 lakh pertaining to cost of land has incorrectly been shown under the head "Building".

The Dargah accepted (April 2006) that cost of land has been shown under the head "Building".

- 4.6 (a) Fixed assets register showing details of the assets has neither been maintained properly nor updated. In absence of which the accuracy of fixed assets worth Rs. 3.18 crore shown in the balance sheet could not be verified in audit.

The Dargah stated (April 2006) that fixed assets register was being maintained and was shown at the time of audit. The reply is not tenable as updated/properly maintained fixed assets register was not shown to audit.

- (b) Physical verification of the assets was not conducted during the year 2002-2003 and 2003-2004. Further certificate to the effect that the Dargah was not holding any obsolete, unusable, irreparable, condemned assets etc was not produced to audit.

The Dargah stated (April 2006) that physical verification was being conducted every year & that its report was shown at the time of audit. The reply is not tenable as physical verification report was not shown to audit.

- 4.7 Receipt and Payment Account though prepared & examined by audit but has not been attached with the Annual accounts for the year 2003-04.

The Dargah stated (April 2006) that Receipt and Payment Account has been attached with booklet of Income and Expenditure Account and Balance Sheet. However copy of the same was not attached with the form of financial statements. The reply is not tenable as Receipt and Payment Account should have also been attached with the form of financial statements compiled as per the new format.

- 4.8 Schedule numbers have not been mentioned in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account.

The Dargah stated (April 2006) that the form of financial statement suggested by the new format was not applicable on it. The reply is not tenable as in absence of approval of its existing format of accounts by the Government, the Dargah is required to compile its accounts in the new format suggested by Ministry of Finance, Controller General of Accounts, New Delhi.

- 4.9 Schedule-24 & 25 indicates only illustrative significant accounting policies & notes on accounts instead of only the points relevant to the accounts of the Dargah.

The Dargah did not give (April 2006) any comment on the objection.

- 4.10 The accounts of the Dargah have been drawn up on the letter head of the Chartered Accountant.

The Dargah stated (April 2006) that this years accounts (i.e. 2004-05) has not been prepared on the letter head of Chartered Accountant.

- 4.11 The accounts of the Dargah were being audited by a Chartered Accountant firm in contravention of the standard Terms and Conditions prescribed for taking up audit under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Dargah did not give (April 2006) any reply to the objection.

5. Net Effect of audit comments on Accounts :—

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March 2004, assets were understated by Rs. 43.66 lakh, liabilities understated by Rs. 49.77 lakh and excess of income over expenditure overstated by Rs. 6.11 lakh.

Place : Jaipur  
Date : 21st April 2006

Sd/- Illegible

Accountant General (Civil Audit)

Rajasthan, Jaipur

#### AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipt and Payment Account, Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2004 and the Balance Sheet as on 31st March 2004 of Dargah Khwaja Saheb, Ajmer. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit report which inter-alia contains the following major audit observations :—

- Non-inclusion of unspent balance of Donation received for construction work in the earmarked fund.

[Para No. 2.1.1 (a)]

- Non-inclusion of Liability of Contributory Provident Fund in the Accounts.

[Para No. 2.1.1 (b)]

- Non-maintenance of updated fixed assets register.

[Para No. 4.6 (a)]

- Non conducting of physical verification of assets.

[Para No. 4.6 (b)]

Receipt & Payment Account though prepared and examined by audit but not attached with the accounts compiled as per the new format of accounts.

(Para No. 4.7)

as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organisation.

I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so

Place : Jaipur  
Date : 21st April 2006

Sd/- Illegible  
Accountant General (Civil Audit)  
Rajasthan, Jaipur

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 27th april 2006

No.5-29/2005-CAU

The First amendment to Statutes of Central Agricultural University, Imphal approved by the Board of Management in its 13<sup>th</sup> meeting held on 08.09.2005 as given below in the tabular form has been assented to by the Visitor of the University vide Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education letter no. 5-29/2005-CAU dated 14.3.2006 and is notified for information and necessary action.

Sl. No.	Clause No.	Existing Provision	Amended Provision
<b>The Vice-Chancellor</b>			
1.	Clause 2(2)	The Committee referred to in clause (1), shall consist of a nominee of the Visitor, the Director-General of the Indian Council of Agricultural Research and the Secretary to the North-Eastern Council set up under section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971) and the nominee of the Visitor shall be convener of the Committee;	2(2) (1) The Committee referred to in clause 2(1) shall consist of the following : (i) Secretary, Department of Agricultural Research and Education, Government of India - Chairman (ii) Secretary to North-Eastern Council set up under section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971 - Member. (iii) The nominee of the Visitor as Member, who shall also be the Convener

2. 2(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for reappointment: Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired to continue in office for such period not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.
- 2(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, and he shall be eligible for reappointment for a further term of five years, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier
- 2(4) Para 3 - Deleted
3. 2(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows :-
- (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rates as may be fixed by the Board.
- 2(5) (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and other allowances as per the rate fixed from time to time by the Government of India for the officers equivalent to the rank of Secretary to Government of India. Further, he shall be entitled to transfer travelling allowances and other allowances as admissible to officers of the rank of Secretary to Government of India for joining and after relinquishing the post.
4. 2(5)(vi) **New Provision**
- 2(5)(vi) - The Vice-Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession and Home Travel Concession as per rules of Government of India.
5. 2(5)(vii) **New Provision**
- 2(5)(vii) - The Vice-Chancellor shall be entitled to the benefit of leave encashment at the time of laying down the office as per rules of Government of India.

### Powers and duties of the Vice Chancellor

- |    |             |   |   |
|----|-------------|---|---|
| 6. | Clause 3(1) | The Vice-Chancellor shall be <i>ex-officio</i> Chairman of the Board, the Academic Council and the Finance Committee and shall in the absence of the Chancellor, preside at the convocations held for conferring degrees. | 3(1) The Vice-Chancellor shall be <i>ex-officio</i> Chairman of the Board, the Academic Council, the Finance Committee, the Research Council and the Extension Education Council and shall in the absence of the Chancellor preside over the Convocation held for conferring degrees. |
| 7. | 3(6)        | The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council and the Finance Committee.  | 3(6) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council, the Research Council, the Extension Education Council and the Finance Committee   |

### Dean of Colleges/Faculties

- |     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 8.  | Clause 4(1) <u>New Provision</u> | 4(1) Each Faculty shall have a Dean who shall also be the head of the College concerned. However, if any Faculty has more than one college, the Vice-Chancellor may nominate one of the Deans as Dean of the Faculty. |
| 9.  | Clause 4(1)                      | Every Dean of a college shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors in the college for a period of five years and he shall be eligible for reappointment:                                     |
| 10. | <u>New Provision</u>             | The Dean shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation.  |

Provided that a Dean on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such :

4(1) Para 2 : Provided that a Dean on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 11. | <b>New Provision</b>  | 4(1) Para 4 The Dean shall hold the office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment, provided that a Dean on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office.                      |
| 12. | 4 (3) The Dean shall be the head of the college and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the college and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances. | 4(3) The Dean shall be responsible to the Vice-Chancellor for the conduct and maintenance of the standards of teaching in the college/faculty and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinance. |
| 13. | 4 (4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies or Committees of the college, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he is a member thereof.             | 4(4) The Dean shall be the <i>ex-officio</i> Chairman of the Board of Studies of the Faculty, a member of the Academic Council, the Research Council and the Extension Education Council of the University.                 |

#### **Director Instruction**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 14. | <b>New Provision</b>   | 5(1) Para 2- The Director of Instruction shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation.  |
| 15. | 5 (2) The Director Instruction shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;<br><br>Provided that Director Instruction on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such. | 5(2)The Director of Instruction shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;<br><br>Provided that Director Instruction on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such. |

#### **The Director of Research**

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 16. | <b>New Provision</b> | 6(1)Para 2 – The Director of Research shall be entitled to rent free and unfurnished accommo-dation |
|-----|----------------------|---|



- |     |                      |   |  |
|-----|----------------------|---|--|
| 17. | 6(3)                 | The Director of Research shall be responsible for supervision and co-ordination of research programmes in the University. | 6(3) The Director of Research shall be responsible for supervision and co-ordination of all research programmes of the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties. |
| 18. | <b>New provision</b> |   | 6(4) The Director of Research shall be ex-officio Member-Secretary of the Research Council of the University.  |

### The Director of Extension Education

- |     |                      |  |   |
|-----|----------------------|--|---|
| 19. | <b>New Provision</b> |  | 7(1) Para 2 – The Director of Extension Education shall be entitled to rent free and unfurnished accommodation  |
| 20. | 7 (2)                | The Director of Extension Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;<br><br>Provided that the Director of Extension Education on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such. | 7(2) The Director of Extension Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;<br><br>Provided that Director of Extension Education on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such. |
| 21. | 7 (3)                | The Director of Extension Education shall be responsible for the supervision and co-ordination of all Extension, Education Programmes in the University.   | 7(3) The Director of Extension Education shall be responsible for supervision and co-ordination of all Extension Education Programmes in the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties.                        |
| 22. | <b>New Provision</b> |  | 7(4) The Director of Extension Education shall be <i>ex-officio</i> Member-Secretary of the Extension Education Council of the University.  |

**Registrar**

- |     |             |  |   |
|-----|-------------|--|---|
| 23. | Clause 8(1) | The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University.  | 8(1) The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendation of a duly constituted Selection Committee under Clause 18 of the Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University. He shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties. |
| 24. |             | <b>New Provision</b>   | 8(2) Para 2 – He may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years.   |
| 25. | 8(3) Para 3 | Provided further that a Registrar shall, notwithstanding his attaining the age of sixty years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier. | 8(3) Para 3 – Deleted   |
| 26. |             | <b>New Provision</b>   | 8(3) Para- 4 In case of a person appointed on deputation his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.   |
| 27. | 8(7)(e)     | to arrange for and superintend the examinations of the University in accordance with the manner prescribed by the Ordinances;  | 8(7)(e) - To arrange for the examinations of the University in accordance with the manner prescribed by the ordinances/ notifications.  |

### The Comptroller

- |     |               |  |   |
|-----|---------------|--|---|
| 28. | Clause 9(1)   | The Comptroller shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University.  | 9(1) The Comptroller shall be appointed by the Board on the recommendation of a duly constituted Selection Committee under Clause 18 of the Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University  |
| 29. | New Provision |  | 9(1) Para 2 - The Comptroller may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years.  |
| 30. | 9(3) Para 1   | The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed by the Ordinances:  | 9(3)Para 1 - The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed by the Ordinances. In case of a person being appointed on deputation, his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the standard terms of deputation. |
| 31. | 9(3) Para 3   | Provided further that the Comptroller shall, notwithstanding his attaining the age of sixty years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier. | 9(3) Para3 – Deleted  |
| 32. | 9(6)          | The Comptroller shall perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:   | (b) perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or as may be required, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor.  |

**Heads of Departments**

33. Clause 10(1) Para 1 Each Department shall have a Head, who shall be not below the rank of an Associate Professor and whose duties and functions and terms and conditions of appointment shall be prescribed by the Ordinances: 10(1) Para 1 – each Department shall have a Head, appointed by Vice-Chancellor who shall be not below the rank of an Associate Professor and whose duties and functions and terms and conditions of appointment shall be prescribed by the Ordinances.
- He shall be responsible to the Dean for teaching, to Director of Research for research to Director of Extension Education for extension education work. However, the Dean shall be the administrative controlling officer of the Heads of Departments in college concerned.
34. 10(1) Para 2 Provided that if there is more than one Professor in any Department, the Head of the Department shall be appointed by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor from among the Professors: 10(1) Para 2 – Provided that if there is more than one Professor in any Department, the Head of the Department shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors.
35. 10(1) Para 3 Provided further that in the case of departments where there is only one Professor, the Board shall have the option to appoint, on the recommendation of the Vice-Chancellor, either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department: 10(1) Para 3 – Provided that in the case of Department where there is only one professor, the Vice-Chancellor shall have the option, to appoint either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department.
36. 10(1) Para 4 Provided also that in a Department where there is no Professor, an Associate Professor may be appointed as the Head of the Department by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor: 10(1) Para 4– Deleted

37. 10(1) Para 5 Provided also that if there is no Professor or Reader, in a Department, the Dean of College concerned shall act as the Head of the Department.
- 10(1) Para 5 Provided also that in a Department where there is no Professor or Associate Professor in a Department, the Dean of the College shall act as the Head of the Department or with the approval of the Vice-Chancellor assign the duty to any other Head of the Department of the College.
38. New Provision 10(6) The Head of Department shall retire at the age of sixty two years.

### Librarians

39. Clause 11(1) Every Librarian shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.
- 11(1) Every Librarian shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose under clause 18 of the Statutes and he shall be a whole-time salaried officer of the university.
40. 11(2) Every Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Board.
- 11(2) Every Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

### Conditions, Powers and Functions of the Board

41. Clause 12(1) (ii) two secretaries from amongst the secretaries in charge of the Departments of Agriculture and Forests of a State in the North-Eastern region to be nominated by the Visitor by rotation in alphabetical order to represent that State;
- 12(1)(ii) Three Secretaries from amongst the Secretaries in-charge of the Departments of Agriculture / Forest / Animal Husbandry/ Fishery / Horticulture of a State in the North-Eastern Region to be nominated by the Visitor by rotation in the alphabetical order to represent that State.
- Provided that there shall not be more than one Secretary from a State in the Board at a particular time.
42. 12(1) (iii) two eminent scientists to be nominated by the Visitor;
- 12(1)(iii) Three eminent scientists to be nominated by the Visitor

- |     |       |  |  |
|-----|-------|--|--|
| 43. | 12(1) | (iv) two distinguished persons representing Agro-based industries to be nominated by the Visitor;  | 12(1)(iv) One distinguished person representing Agro-based industries or a manufacturer having a special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor  |
| 44. | 12(1) | (ix) an industrialist or a manufacturer having special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor;   | 12(1)(ix) Deleted  |
| 45. | 12(1) | (x) one woman social worker representing woman social organization in the North-Eastern Region;  | 12(1)(x) one woman social worker representing woman social organization from the North-Eastern Region to be nominated by the Vice-Chancellor   |
| 46. | 12(1) | (xiii) three persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of the Central Government dealing with Agriculture, Animal Husbandry and Forestry; and                                  | 12(1)(xiii) Two persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of Government of India dealing with the Agriculture and Animal Husbandry to be nominated by the concerned Secretary to the Government of India |
| 47. |       | <b>New Provision</b>   | 12(1)(xiv) A nominee of the Secretary representing the Department of Agricultural Research & Education, Government of India  |
| 48. | 12(2) | The term of office of the members of the Board, other than <i>ex-officio</i> members, shall be two years.  | 12(2) The term of office of the members of the Board, other than <i>ex-officio</i> members, shall be three years   |
| 49. | 12(4) | (iv) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence; | 12(4)(iv) Deleted  |

- |     |       |   |   |
|-----|-------|---|---|
| 50. | 12(4) | (xiii) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council; | 12(4)(xiii) to fix fees, honorarium, emoluments and travelling allowances of examiners / experts / consultants / advisors / Officers on Special Duty etc.   |
| 51. | 12(4) | (xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, and Scholars and determine the terms and conditions of such appointment; and               | 12(4) (xviii) to provide for appointment of Visiting Professor(s), Emeritus Professor(s) Consultant and, Officers on Special Duty/Scholars etc. and to determine the terms and conditions of such appointment |

### Quorum for meetings of the Board

- |      |           |  |  |
|------|-----------|--|--|
| 52.. | Clause 13 | Seven members of the Board shall form a quorum for a meeting of the Board. | Five members of the Board shall form the quorum for a meeting of the Board |
|------|-----------|--|--|

### Constitution and Powers of the Academic Council

- |     |              |  |   |
|-----|--------------|--|---|
| 53. | Clause 14(1) | The Academic Council shall consist of the following members, namely:-  |   |
| 54. | 14(1)        | (i) the Vice-Chancellor, ex-officio member;  | 14(1)(i) the Vice-Chancellor <del>ex-officio</del> -Chairman  |
| 55. | 14(1)        | (vii) five outstanding teachers to be co-opted from outside the University representing different Faculties; | 14(1)(vii) two eminent scientists to be co-opted from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor |
| 56. | 14(1)        | (viii) seven heads of the Department to be nominated by the Vice-Chancellor;                                 | 14(1)(viii) seven Heads of the Departments, at least one from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor   |

- |     |        |   |  |
|-----|--------|---|--|
| 57. | 14(1)  | (ix) the Education Officer or his representative to be nominated by the North Eastern Council set up under Section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971);   | 14(1)(ix) one nominee of North eastern Council with specialization in Agricultural Sciences.   |
| 58. | 14(1)  | (x) the Registrar of the University, <i>ex-officio</i> Member Secretary;  | 14(1)(x) the Registrar of the University, <i>ex-officio</i> Secretary  |
| 59. | 14 (2) | The term of office of the members of the Academic Council other than <i>ex-officio</i> members shall be two years.  | 14(2) The term of office of the members of the Academic Council, other than <i>Ex-officio</i> members, shall be three years  |
| 60. | 14(3)  | (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions, co-operative teaching among colleges and institutions, evaluation of research or improvements in academic standards; | 14(3)(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and institutions, evaluation and improvements in academic standards. |
| 61. |        | (b) to bring about inter-college co-ordination to establish or appoint committees or boards for taking up projects on an inter-college basis;   | (b) to bring about inter-college co-ordination and establish or appoint committees on academic matters   |

### Quorum for the meeting of the Academic Council

- |     |              |   |  |
|-----|--------------|---|--|
| 62. | Clause<br>15 | Nine members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council. | 15 One third members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council |
|-----|--------------|---|--|



**Board of Studies**

- |     |                      |   |   |
|-----|----------------------|---|---|
| 63. | Clause<br>16(1)      | Each Department shall have a Board of Studies.  | 16(1) Each Faculty shall have a Board of Studies  |
| 64. | 16 (2)               | The constitution of a Board of Studies and the term of office of its members shall be provided by the Ordinances. | <p>16(2) The Board of Studies of each Faculty shall be constituted as under:</p> <p>16(2)(i) Dean of Faculty – Chairperson</p> <p>16(2)(ii) Director of Research – Member</p> <p>16(2)(iii) Director of Extension Education, Member</p> <p>16(2)(iv) All Heads of Departments of the Faculty not below the rank of Associate Professor – Members</p> <p>16(2)(v) One representative of the Academic Council not belonging to the particular faculty to be nominated by the Vice-Chancellor</p> <p>16(2)(vi) Two eminent scientists from Agricultural Education system not belonging to the Central Agricultural University to be nominated by the Vice-Chancellor.</p> <p>16(2)(vii) One final year Post Graduate student with Highest Overall Grade Point average(OGPA) – Member</p> <p>16(2)(viii) Assistant Registrar (Academic) of the faculty - Member</p> |
| 65. | <b>New Provision</b> |   | 16(2)(ix) Director of Instruction-Member  |

- |     |        |  |  |
|-----|--------|--|--|
| 66. | 16 (3) | The functions of the Board of Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned Board in the manner prescribed by the Ordinances- | 16(3) The functions of the Board of Studies shall be to recommend to the Academic Council course curriculum to be prescribed for various degree(s) to be offered by the concerned Faculty and to make suitable recommendations for the teaching of the prescribed/approved course. |
|-----|--------|--|--|

- |     |     |   |             |
|-----|-----|---|-------------|
| 67. | (d) | Provided that the above functions of a Board of studies shall, during the period of three years immediately after the commencement of the Act, be performed by the Department | (d) Deleted |
|-----|-----|---|-------------|

#### Finance Committee

- |     |              |   |   |
|-----|--------------|---|---|
| 68. | Clause 17(1) | The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-                            |   |
|     | (i)          | the Vice-Chancellor   | 17(1)(i) The Vice-Chancellor – Chairman   |
|     | (ii)         | the Financial Adviser, Indian Council of Agricultural Research;                                   | 17(1)(ii) The Financial Adviser (DARE) or his/her nominee not below the rank of Deputy Secretary.       |
| 69. | 17 (2)       | Five members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee. | 17(2) ) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for meeting of the Finance Committee |

#### Selection Committees

- |     |               |  |   |
|-----|---------------|--|---|
| 70. | Clause 18 (2) | The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, Director Instruction, Director of Research, Director of Extension Education, a nominee of the Visitor and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table | 18(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of members as specified in the corresponding entries in column 2 of the said Table. |
|-----|---------------|--|---|

TABLE

1	2
	<b>Existing Provision</b>
Professor	(i) The Head of the Department concerned, if he is a Professor. (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Board, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which Professor will be concerned.
Associate Professor/ Assistant Professor	(i) The Head of the Department concerned (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Two persons not in the service of the University, nominated by the Board, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge, or interest in, the subject with which the Associate Professor/ Assistant Professor will be concerned.
Registrar, Comptroller	(i) Two members of the Board nominated by it; and (ii) One person not in the service of the University, nominated by the Board.
Librarian	Two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of the Library Science / Library Administration to be nominated by the Board.
Dean of college, Directors or head of other institution maintained by the University	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Board and one by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the college or institution.

TABLE

1	3
	<b>Amended Provisions</b>
Directors/Deans	(i) Vice-Chancellor or his nominee- Chairman (ii) One nominee of the Visitor  (iii) Three eminent scientists not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent (serving/retired) to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of six names approved by the Board.

Professors/ Equivalent	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Vice-Chancellor or his nominee – Chairman</li> <li>(ii) One nominee of the Visitor</li> <li>(iii) Dean of the concerned Faculty – Member</li> <li>(iv) Director of Research or Director of Extension Education or Director of Instruction to be nominated by Vice-Chancellor – Member</li> <li>(v) Three eminent subject matter specialists not below the rank of Head of Department or equivalent (serving or retired) to be nominated by the Vice-Chancellor out of a panel of six names approved by the Board – Members</li> </ul>
Associate Professor/ Asstt. Professor/ Equivalent	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Vice-Chancellor or his nominee- Chairman</li> <li>(ii) One nominee of the Visitor</li> <li>(iii) Dean of the concerned faculty – Member</li> <li>(iv) Director of Instruction or Director of Research or Director of Extension Education to be nominated by Vice-Chancellor</li> <li>(v) Head of the concerned Department not below the rank of Professor</li> <li>(vi) Two eminent teachers/ scientists not below the rank of Professor or equivalent (serving or retired) to be nominated by the Vice-Chancellor out of panel of six names approved by the Board</li> </ul>
Registrar/ Comptroller/ Librarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Vice-Chancellor or his nominee – Chairman</li> <li>(ii) One nominee of the Visitor</li> <li>(iii) One Director/Dean to be nominated by the Vice-Chancellor</li> <li>(iv) Two experts in the concerned subject to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of six names approved by the Board - Members</li> </ul>

**Existing Provisions****Amended provisions**

71. 18 (3) The Vice-Chancellor, or in his absence, his nominee shall preside at the meetings of a selection Committee ;

Provided that the meetings of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board under clause (2) :

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless, -

18(3) Para 3 - Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least two members, not in the service of the University are present in the meeting

18(3)(a) - where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board is four in all, at least three of them attend the meeting; and

18(3)(a) Deleted

(b) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board is three in all, at least two of them attend the meeting.

18(3)(b) Deleted

72. 18 (5) The procedure to be followed by a Selection Committee in making recommendations shall be laid down in the Ordinances.

18(5) The procedure to be followed by the Selection Committee in making recommendations shall be decided by the Committee prior to the interview.

73. 18(7) (i) If the temporary vacancy is for a duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses:

18(7)(i) The Vice-Chancellor shall have the authority to appoint a person on adhoc basis for period not exceeding six months extendable by a further period of six months with the approval of the Board.

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interest of work it is necessary to fill the Vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis by the local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the college concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor:

Provided that if the same person hold the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor:

Provided further that in case of sudden casual vacancies of teaching posts caused by death or any other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned, make a temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such appointment.

(iii) No teacher appointment temporarily shall, if he is not recommended by a regular Selection Committee for appointment under the Statutes, be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.

74.

New Provision

18(8) Mode of Constitution of the Selection Committee for non-academic staff, not prescribed in the statutes, shall be prescribed by the Ordinance(s)

**Recognised teachers**

75. Clause 21(1) The Qualifications of recognized teachers shall be such as may be prescribed by the Ordinances. 21(1) (a) Qualifications of Director, Dean, Professor, Associate Professor and Assistant Professor of different Faculties and their equivalents in Research and Extension Education shall be as prescribed by the Ordinance(s)  
21(1) (b) Qualifications of Non-Academic Staff shall be prescribed by the Ordinance(s).
76. 21(2) All applications for the recognition of teachers shall be made in such manner as may be laid down in the Ordinances. 21(2) Deleted
77. 21(3) No teacher shall be recognised as a teacher except on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose in the manner laid down in the Ordinances. 21(3) Deleted
78. 21(4) The period of recognition of a teacher shall be determined by the Ordinances made in that behalf. 21(4) Deleted
79. 21(5) The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw recognition from a teacher: 21(5) Deleted  
Provided that no such resolution shall be passed until notice in writing has been given to the person concerned calling up on him to show cause, within such time as may be specified in the notice, why such resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them have been considered by the Academic Council.

**Terms and Conditions of service and code of conduct of the Teachers ,etc**

80. Clause Every teacher and member of the 23(2) Every teacher and other staff of  
23 (2) academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the term of which shall  
shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances  
prescribed by the Ordinances.

**Terms and Conditions of service and code of conduct of other employees.**

- Clause All the employees of the University, 24. All the non-academic employees of  
81. 24 other than the teachers and other the University, shall in the absence of  
academic staff of the University any contract to the contrary, be governed  
shall, in the absence of any contract by the terms and conditions of service  
to the contrary, be governed by the and code of conduct as are specified in  
terms and conditions of service and the Statutes, the Ordinances and the  
code of conduct as are specified in Regulations as made from time to time  
the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

**Removal of employees of the University**

82. Clause Notwithstanding anything contained 26(2) Notwithstanding anything  
26 (2) in the terms of the contract of contained in the terms of the contract  
appointment or of any other terms and of appointment or of any other terms  
conditions of service of the and conditions of service of the  
employees, the Board in respect of employees, the Board in respect of  
teacher and other academic staff and teacher and other academic staff and  
the appointing authority, in respect of the appointing authority, in respect of  
other employees, shall have the power other employees, shall have the power  
to remove a teacher or a member of to remove a teacher or a member  
the academic staff, or as the case of the academic staff, or other  
may be, other employees on grounds employees as the case may be on  
of misconduct. grounds of misconduct.
83. 26(3) Save as aforesaid, the Board or as the 26(3) Save as aforesaid, the Board or  
case may be, the appointing authority the appointing authority as the case  
shall not be, entitled to remove any may be, shall not be entitled to remove  
teacher, member of the academic staff any teacher, member of the academic  
or other employee except for a good staff or other employee except for a  
cause and after giving three months good cause and after giving three  
notice or on payment of three months' months notice or on payment of three  
salary in lieu thereof. months salary in lieu thereof.



84. 26(6) (b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Board or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof.
- 26(6)(b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Board or, the appointing authority as the case may be, or by paying one month's salary in lieu thereof.

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Board or the appointing authority, as the case may be;

Provided that such resignation shall take effect only on the date from which the resignation is accepted by the Board or the appointing authority, as the case may be.

### Advisory Committee

85. Clause 31 Every College or institution maintained by the University shall have an Advisory Committee consisting of not more than fifteen persons which shall consist of, among others, three teachers including the Dean of the College or institution, and two teachers of the University nominated by the Board
- 31 Deleted

### Acting Chairman

86. Clause 33 When no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.
- Clause 33 When no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of any Committee or when the Chairman so provided for is absent or the Vice-Chancellor has not in writing made any arrangement, the members shall elect one from among themselves to preside over meeting.

### Residence Condition for Membership and Office

87. Clause 36 Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall be eligible to be an Officer of the University or a member of any authority of the University.

Clause 36 Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall not be eligible to be an Officer of the University or a member of any authority of the University.

#### Students Council

88. Clause 39(1) There shall be constituted in the college of the University, a Students' Council for every academic year, consisting of –

- (i) the Director Instruction who shall be the Chairman of the Students' Council;
- (ii) all students who have won prizes in the previous academic year in the field of studies, fine arts, sports and extension work;
- (iii) Twenty students to be nominated by the Academic Council on the basis of merit in studies, sports, activities and all round development of personality;

Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University, before the Students' Council if so permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

39(1) There shall be, in each College of the University a Students' Council for each academic session for the purpose of making recommendations to the authorities of the University with regard to various activities relating to students welfare, including games, sports, dramatics, debates, cultural activities etc. and such Council shall consist of :

- i) The Dean of the College-Chairperson
- ii) All Hostel Wardens
- iii) Campus Estate Officer
- iv) Five Heads of the Departments to be nominated by the Dean
- v) Hostel Prefects
- vi) One student from each class/year who has secured the highest Overall Grade Point Average in the previous academic session.
- vii) Students Welfare Officer – Member Secretary

89. 39(2) The functions of the Students' Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programmes of studies, students' welfare and other matters of importance in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion. 39(2) Deleted
90. 39(3) The Students' council shall meet at least once in an academic year preferably in the beginning of that year. 39(3) The Students Council shall meet at least once in each semester.

### Collaboration with other Institutions and Organisations

91. **New Provision** 43. the University shall have the authority to enter into an agreement through a Memorandum of Understanding with any research and /or academic institution of higher learning, including the Indian Council of Agricultural Research, Regional Complex for North Eastern Hill Region, Barapani (Meghalaya), to conduct collaborative Post Graduate Research Programme to fulfil the partial requirement for the award of Master's and Ph. D. degrees of the University.

### Constitution and function of Research Council

92. **New Provision** 44(1) There shall be a Research Council of the University to exercise general supervision over the research policies and programmes of the University in the area of Agricultural and allied disciplines. The Research Council shall consist of the following members :
- |  |                  |
|--|------------------|
| 44(1)(i) The Vice-Chancellor   | Chairman         |
| (ii) Director of Extension Education   | Member           |
| (iii) Director of Instruction  | Member           |
| (iv) All Deans of the Colleges of the University   | Members          |
| (v) Six nominees of the State Governments not below the rank of Directors one each from the six states of NEH Region - | Members          |
| (vi) All Co-ordinators of the Research Teams of the University   | Members          |
| (vii) Two eminent Agricultural Scientists to be nominated by the Vice-Chancellor for three years                       | Members          |
| (viii) Director of Research  | Member Secretary |

44(2) The Research Council shall meet at least once in a year.

44(3) One third member of the Research Council shall form a quorum for the meeting of the Research Council.

44(4) If a vacancy occurs due to resignation or otherwise the same shall be filled up for the remaining period.

### **Constitution and functions of the Extension Education Council**

93. **New Provision** 45(1) There shall be an Extension Education Council of the University to exercise general supervision over the Extension Education policies and programmes of the University in the area of Agricultural and allied disciplines. The Extension Education Council shall consist of the following members :
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 45(1)(i) The Vice-Chancellor  | Chairman           |
| (ii) Director of Research   | Member             |
| (iii) Director of Instruction   | Member             |
| (iv) All Deans of the Colleges of the University  | Members            |
| (v) Six nominees of the State Governments of NEH Region not below the rank of Directors   | Members            |
| (vi) Six farmers representatives from the States of NEH Region and one woman social worker to be nominated by the Vice-Chancellor for term of three years | Members            |
| (vii) Two eminent Scientists from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor for two years   | Members            |
| (viii) Director of Extension Education  | Member - Secretary |
- 45(2) The Extension Education Council shall meet at least once in a year.

45(3) One third members of the Extension Education Council shall form a quorum for the meeting of the Extension Education Council.

94. **New Provision**

46(1) All regular employees of Central Agricultural University shall be governed by the provisions of "Central Civil Services (Pension) Rules 1972" and "General Provident Fund (Central Services) Rules 1960", in respect of grant of Pension and Gratuity and G.P. Fund.

46(2) Any change incorporated by Government of India in "Central Civil Services (Pension) Rules 1972" and "General Provident Fund (Central Services) Rules 1960", shall also be applicable to employees of Central Agricultural University.

46(3) In respect of commutation of Pension, the provisions of "Central Civil Services (commutation of Pension) Rules, 1981" shall apply.

46(4) The Vice-Chancellor, Central Agricultural University shall remain (1) Pension Sanctioning Authority and (2) Pension Authorization Authority.

46(5) Pension Payment shall be centralized and controlled by Comptroller's Office.

  
(D.K. Chhatwal)

Under Secretary to the Govt. of India

PAGE#: 1

**PONDICHERRY UNIVERSITY**  
**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**


	Schedule No.	2004-2005 Current Year	2003-2004 Previous Year
		Rs.	Rs.
<b>CORPUS/CAPITAL FUND &amp; LIABILITIES</b>			
Corpus/Capital Fund	1	603628380	723453172
Reserves & Surplus	2	50690746	38761700
Earmarked Special Fund/Endowment Fund	3	100747901	77722634
Secured Loans & Borrowings	4	0	0
Unsecured Loans & Borrowings	5	0	0
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities & Provisions	7	73255693	65968208
<b>TOTAL</b>		<b>828322720</b>	<b>905905714</b>
<b>ASSETS:</b>			
Fixed Assets	8	486980562	503363263
Investments From Earmarked/Endowments	9	44130995	64719138
Investments - Others	10	190708247	189508247
Current Assets, Loans & Advances	11	106502916	148315066
<b>TOTAL</b>		<b>828322720</b>	<b>905905714</b>



(M.V. RAJESWARI)

FINANCE OFFICER

PONDICHERRY UNIVERSITY



(DR. J.K. BHATNAGAR)

VICE-CHANCELLOR

PONDICHERRY UNIVERSITY

PAGE#: 2

## PONDICHERRY UNIVERSITY

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2005


	2004-2005 Current Year	Sch. No.	2003-2004 Previous Year
	Rs.		Rs.
<b>INCOME:</b>			
Income from Sales & Services		12	0
Grants/Subsidies	122244796	13	52849591
Fees & Receipts	51026473	14	34961442
EMSF Receipts	0	15	0
Income from Royalty/Publications etc.	0	16	0
Interest Earned	714950	17	2673122
Other Income	0	18	0
Closing Stock	0	19	0
<b>TOTAL INCOME (A)</b>	<b>173986219</b>		<b>90484155</b>
<b>EXPENDITURE:</b>			
Establishment Expenses	117239674	20	102437077
Other Administrative Expenses	49499776	21	40052653
Expenditure on Grants	0	22	0
Depreciation	27186450		0
<b>TOTAL EXPENDITURE (B)</b>	<b>193925900</b>		<b>142489730</b>
<b>Excess of Expenditure over Income (B) - (A)</b>	<b>19939681</b>		<b>52005575</b>
<b>Excess of Income Over Expenditure (A) - (B)</b>			



(M.V. RAJESWARI)

FINANCE OFFICER

PONDICHERRY UNIVERSITY



(D.R.A. BHATNAGAR)

VICE-CHANCELLOR

PONDICHERRY UNIVERSITY





Page # : 4			
LESS: Sale of Vehicles	108285		255240
Cost of Books Recovered	0		3451
Excess of Expenditure Income (N.P)	19839881		52005575
(B)	20047966		52284286
TOTAL C = (A) - (B)		541860391	680099838
Plan Account : Opening Balance	43353534		
ADD: Receipts	24438977		
ADD: Accrued Interest	697980		
TOTAL (A)	68490501		
Expenditure	19225926		
ADD: Prepaid VSAT Charges	0		
ADD: Advance Credit Balance	125590		
LESS: ASSETS	11858831		
LESS: Deposits with CPWD	970373		
TOTAL (B)	6722512		
TOTAL D = (A) - (B)		61767989	43353534
SCHEDULE TOTAL (C + D)		803628380	723453172

CHED E 2 : RESERVES & SURPLUS:		2004-2005		2003-2004	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>Human Rights Corpus Fund:</b>					
Opening Balance	300388			300248	
ADD: Receipts	14025	314411		138	
					300388
<b>Women Studies Fund:</b>					
Opening Balance	294089			294089	
ADD: Receipts	13750	307839		0	294089
<b>Alumni Fund</b>					
Opening Balance	62801				62801
ADD: Receipts	44800	107401			
<b>Students Welfare Fund</b>					
Opening Balance	18760				18760
ADD: Receipts	47880	66640			
<b>House Building Advance:</b>					
Opening Balance	9581389			9724983	
ADD Grants from UGC	0			340408	
HBA Recovery	2952516				
Interest on Investments	507308			0	
ADD Accrued Interest	80425			2180151	
LESS HBA Paid	8203048	4918590		340406	
				2674131	
					9531389
<b>UGC Corpus Fund:</b>					
Opening Balance	3907004			3852335	
ADD during the year	425226	4332230		54669	
					3907004

Page # : 6					
<b>M.C.A.:</b>					
Opening Balance	1108846			875818	
ADD during the year	5868818			1212998	
				2088816	
LESS Expenditure	5846410	1129254		979970	1108846
<b>U.D.F.:</b>					
Opening Balance	23488625			23634395	
ADD Receipts	7388895			2313685	
ADD Interest Accrued	613421				
ADD Interest Received	1186892			1296317	
ADD Recoupment Building Fund	5500000			27244397	
ADD Fund due from Colleges	511125				
LESS Expenditure	108772	38580286		3755772	23488625
<b>Industrial Interface Fund</b>					
Opening Balance	0				38761700
ADD Receipts	484245				
LESS Expenditure	350150	114095			
<b>Infrastructure Development Fund</b>					
Opening Balance	0				
ADD Receipts	695000				
LESS Expenditure	0	695000			
<b>Computer Lab Fund</b>					
Opening Balance	0				
ADD Receipts	125000				
LESS Expenditure	0	125000			
<b>SCHEDULE TOTAL</b>				<b>50690746</b>	

	2004-2005		2003-2004		Page # : 7
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
<b>SCHEDULE 3: EARMARKED SPECIAL FUND/ ENDOWMENT FUND:</b>					
<b>EARMARKED SPECIAL FUND</b>					
<b>E.M.S.F.</b>					
ADD: Receipts	67717956		37076627		
ADD: Accrued Interest	42442188		31027706		
<b>Total (A)</b>	110728274		68104333		
Expenditure	60257551				
ADD: Advance (Credit figure)	568781		386372		
LESS: Assets	36655970			67717956	
LESS: LC advance	3508351				
LESS: Deposits with CPWD	30400				
<b>Total (B)</b>	20618561				
<b>(A) - (B)</b>		90109723			
<b>ENDOWMENT FUND</b>					
Endowment Fund					
Opening Balance	10004878		7139938		
ADD: Interest Income during the year	783330		2419752		
ADD: New Endowment	128000		657277		
			10216967		
LESS: Expenditure	275630		212289		
				10004878	
<b>SCHEDULE TOTAL</b>		100747901		77722634	

[illegible]

		2004-2005		2003-2004	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 7: CURRENT LIABILITIES</b>					
<b>Cautions/Security Deposit</b>					
Opening Balance		6189186		4424720	
ADD: Receipts		862109		2394221	
LESS: Refunds		1441358	5609949	6818941	6189186
<b>Earnest Money Deposit</b>					
Opening Balance		1866598		1897363	
ADD: Receipts		2827927		343098	
LESS: Refunds		287535	4509968	2240461	1865596
<b>General Provident Fund</b>					
Opening Balance		51350835		43384565	
ADD:					
Subscriptions		11779078		8308612	
Recovery		7531374		7347298	
Interest/Investments paid to Subscribers		2503040		3790747	
Interest(2003-04) paid to Subscribers		1174591		3328398	
ADD: Accrued Interest		1261127		67139618	
LESS: Withdrawals		18650024		-15788783	51350835
LESS: Interest(2003-04) Paid to Subscribers		1174591	55765439		

					Page # : 10
<b>Contributory Provident Fund</b>					
Opening Balance	6433837			5756325	
ADD:					
Contributions	521202			481950	
Recoveries	185980			173332	
Interest on Investment paid to Subscribers	251547			235926	
Interest (2003-04) paid to Subscribers	23444			468621	
ADD: accrued Interest	88788				
Matching Contribution	387807			219807	
surplus Interest)	185114			7336921	
LESS: Withdrawals	1108720			-903084	
LESS: Surplus Interest (2003-04) credited to subscribers	23444				
years Surplus Interest	185114	6760441			6433837
Remittance of recoveries					
Opening Balance	7594			7594	7594
LESS: Payment	1930	5684			
Group Insurance		21150		21150	21150
New Pension Fund					
Opening Balance					
ADD : Subscription	12308				
ADD : Matching Contribution	12308				
ADD : Interest	139	24755			
PLAN BOOKS PAYMENT DUE	562316	562316			
<b>SCHEDULE TOTAL</b>		<b>73255693</b>			<b>65968208</b>

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS		NON-PLAN		GROSS BLOCK		DEPRECIATION		On Additions during the year		On Deductions during the year		Total upto the year end		NET BLOCK		DEPRECIATION %	
DESCRIPTION		Cost/Valuation as at beginning of the year		Cost/Valuation at the year end		As at the beginning of the year		during the year		during the year		end		As at the Current Year End		As at the Previous year end	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A. FIXED ASSETS																	
1.a Land Pondicherry		1000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
1.b Land Port Blair		197185		0	0	197185	0	0	0	0	0	0	0	197185	197185	0	0
2. BUILDINGS		190088511		0	0	190088511	0	0	0	0	0	0	0	190088511	190088511	0	0
3. OFFICE EQUIPMENT		110823574		14729108	0	27706894	0	3682277	0	31388171	0	26994272	0	242046450	110823574	10	10
4. VEHICLES		8228541		0	0	1244808	0	0	0	100580	0	1143848	0	94184512	8228541	25	25
5. FURNITURE		29100791		2130633	10755	31220088	4395118	319888	0	1813	0	4683100	0	29337599	29100791	20	20
6. LIBRARY BOOKS		90155000		2355710	11548	92499182	54093000	1413426	0	5829	0	55499497	0	36999665	90155000	15	15
7. ACADEMIC ROBES		44150		0	0	44150	0	0	0	0	0	44150	0	0	44150	80	80
TOTAL		435612732		89089662	130588	524571806	107359521	12402719	0	109102	0	119653138	0	404918668	435612732	100	100
In respect of Equipment Opening Balance an amount of Rs. 10,26,959/- is deducted towards LC opened in 2003-2004 refunded in 2004-05																	
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS		PLAN		GROSS BLOCK		DEPRECIATION		On Additions during the year		On Deductions during the year		Total upto the year end		NET BLOCK		DEPRECIATION %	
DESCRIPTION		Cost/Valuation as at beginning of the year		Cost/Valuation at the year end		As at the beginning of the year		during the year		during the year		end		As at the Current Year End		As at the Previous year end	
A. FIXED ASSETS																	
1. BUILDINGS		184010		0	0	184010	0	0	0	0	0	0	0	184010	184010	0	0
2. OFFICE EQUIPMENT		4407845		2500246	0	6907891	1101811	625082	0	0	0	1728973	0	5180918	4407845	25	25
3. VEHICLES		0		2124958	0	2124958	0	424682	0	0	0	424682	0	1609086	0	0	0
4. FURNITURE & FURNISHING		360797		0	0	360797	54120	0	0	0	0	54120	0	306877	360797	15	15
5. BOOKS & JOURNALS		1071351		7595743	0	8667094	642811	4557446	0	0	0	5202256	0	3468836	1071351	80	80
TOTAL		6023803		12220947	0	18244798	1817242	8807499	0	0	0	7426741	0	10329009	6023803		



Page: 12											
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS											
DESCRIPTION	EMSF	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/Valuation as at beginning of the year	Rs.	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total upto the year end	As at the Current Year End	As at the Previous year end
A. FIXED ASSETS											
1. BUILDINGS		3800747	0	0	3800747	380075	0	0	380075	3420672	3800747
2. OFFICE EQUIPMENT		49735953	36168612	0	85904565	12433988	9042153	0	21476141	64428424	49735953
3. VEHICLES		257992	0	0	257992	51598	0	0	51598	206394	257992
4. FURNITURE & FURNISHING		661406	109408	0	770814	99211	16411	0	115622	655192	661406
5. BOOKS & JOURNALS		5660924	377950	0	6038874	3396554	226770	0	3623324	2415550	5660924
TOTAL		60117022	36656970	0	96772992	16361427	9285334	0	25646761	71126231	60117022
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS											
UDF											
DESCRIPTION	GROSS BLOCK	DEPRECIATION				NET BLOCK					
	Cost/Valuation as at beginning of the year	Rs.	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total upto the year end	As at the Current Year End	As at the Previous year end
A. FIXED ASSETS											
1. OFFICE EQUIPMENT		12272	0	0	12272	3068	0	0	3068	8204	12272
2. FURNITURE & FURNISHING		125235	0	0	125235	18785	0	0	18785	106450	125235
TOTAL		137507	0	0	137507	21853	0	0	21853	119654	137507
G.TOTAL		501891064	137966579	130588	639727055	125560043	27295552	109102	152746495	486980562	501891064
L.C. Equipments (2003-2004) refunded in 2004-2005		1026959									1026959
Adv. Payment for Journals (previous year)		445240									445240
TOTAL >>		503363263									503363263
Previous year Journals receivable amounting to Rs.4,45,240/- has been transferred to advance.											

Page #: 13

	2004-2005		2003-2004	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 9: EMSF/ENDOWMENT/ INVESTMENTS</b>				
EMSF Investments	33901031		55115200	
Endowment Investment	10229984	44130995	9803938	64719138
<b>SCHEDULE TOTAL</b>		44130995		
<b>SCHEDULE 10: INVESTMENTS - OTHERS</b>				
Non-Plan Investments	0		12003458	
Plan	72175000		71175000	
Debt, Deposit a/c	20732447		18637181	
GPF A/c	53800000		50700000	
CPF A/c	5550000		6241898	
House Building Advance	4700000		9500000	
University Development Fund	33750800	190708247	23250800	189508247
<b>SCHEDULE TOTAL</b>		190708247		189508247

Page #: 14

SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS LOAN & ADVANCES	2004-2005		2003-2004	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Journals advance payment	6508399			
Imprest	889			
Cash & Bank Balance	18755039		500	
CPWD Deposit	54622989		4173901	
Accrued Interest	3937209		134543530	
Electricity Deposit	485891		465891	
Telephone Deposit	221305		201055	
Temporary Advance	6245310		8633814	
Tour Advance	0		41242	
Medical Advance	0		238883	
LPG Deposit	16250		16250	148315066
Prepaid Insurance	100597			
AMC prepaid	163036			
LC advance (Non-Plan Rs.3662076, EMSF Rs.3500351)	7171426			
Examination Fee Receivable	7553355			
Hostel dues receivable	19150			
VSAT charges Advance Payment - Plan a/c	146092			
Horticulture Receipts receivable	3800			
UDF due from Colleges	511125			
Closing Stock				
Stationaries and chemicals	60000			
Postage	1044			
<b>SCHEDULE TOTAL</b>	<b>106502916</b>			

INCOME:		2004-2005		Page # : 15	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Schedule 12:					
Income from Sales/Services					
Schedule 13: Grants/Subsidies					
Grants from GOC Non-Plan		144944000		99785000	
LESS: Capitalised Value		22699204		46935409	
Schedule Total			122244796		52849591
Schedule 14:					
Fees & Receipts					
University Receipts		43450168		34961442	
ADD: Hostel Room Rent receivable		16400			
Examination Fee Receivable		7553355			
ADD: Hostel Establishment Charges receivable		2750			
ADD: Horticulture Receipts receivable		3800			
			51028473		34961442
SCHEDULE 15:					
EMSF Receipts				0	0
ADD: Interest Received		0		0	0

Schedule 16:				Page# : 16
Income from Royalty etc				
		0		
Schedule 17:				
Interest Earned:				
Nonplan				
		714950	2673122	
Schedule Total				
		714950	2673122	
Schedule 18:				
Other Income				
		0		
Schedule 19:				
Income/Decrease in Stock of				
Finished /Goods				
		0		
Closing Stock				
		0		

EXPENDITURE		2004-2005		Page # : 17	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>SCHEDULE 20:</b>					
<b>Establishment Expenses</b>					
Salaries & Wages Non-Plan		107177377		88094843	
Retirement Benefits		10062297		9936088	
Hon. & P. Claims				4406126	
Salaries & Wages Plan A/c				0	
<b>Schedule Total</b>			117239674		102437077
<b>SCHEDULE 21:</b>					
<b>Other Admn. Expenses</b>					
Other Charges Non-Plan		49824453		40052653	
LESS: Prepaid AMC		163036			
LESS: Prepaid Insurance		100597			
LESS: Closing Stock					
Stationary and chemicals		60000			
Postage		1044			
<b>Schedule Total</b>			49499776		40052653
<b>SCHEDULE 22:</b>					
<b>Expenditure on Grants</b>					
EMSF A/c		0		0	0

**PONDICHERRY UNIVERSITY****NOTES FORMING PART OF THE ANNUAL ACCOUNTS**

- The New Format of Annual Accounts has been adopted with effect from 2004-2005 .
- The Annual Accounts are prepared on accrual basis.
- Physical verification and de novo valuation of the assets is under progress
- The Classification of assets is retained as per the old system existing in the University till the Physical verification is completed.
- The depreciation has been provided on the Fixed Assets as per the provisions of the Income Tax Act. However, depreciation fund has not been provided.
- Depreciation on Plan and EMSF Assets have been written-off under the Non-Plan maintenance grants, as there is no provision to write-off the depreciation under these grants.
- Depreciation for the opening balance of the fixed Assets has been provided by deducting from the opening balance of Capital fund of Non-Plan Account.
- During the current year, the EMSF Project Grants and Plan Grants have been shown in the Balance Sheet, as Capital items as per the new format.
- The deficit balance under the EMSF Account has been set-off under Interest under overall surplus earned out of the EMSF and kept in EMSF account

- The value of land given on 99 year leasehold by Government of Pondicherry is taken at a nominal value of Rs.1,000 during the year and shown under fixed assets

- The Value of the land gifted to the University by the Govt. of Pondicherry and Administration of Andaman & Nicobar Islands are yet to be assessed. Hence, their value could not be exhibited on the assets side of the Balance Sheet. The extent and location of the lands occupied by the University is as follows:-

THE LANDS SITUATED AT PILLAICHAVADY AND KALAPET VILLAGES IN PONDICHERRY  
OF AN EXTENT OF 779.71 ACRES

THE LANDS SITUATED AT BROOKSHABAD VILLAGE, PORT BLAIR, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS  
OF AN EXTENT OF 4.45 HECTARES.

THE LANDS SITUATED AT AUSTINABAD VILLAGE, PORT BLAIR, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OF  
AN EXTENT OF 1.55 HECTARES.

THE LAND AND BUILDING SITUATED AT LAWSPET OF AN EXTENT OF 1 ACRE. THIS LAND AND  
BUILDING HAVE BEEN GIVEN ON LEASE FOR 99 YEARS BY THE GOVERNMENT OF PONDICHERRY  
FOR THE COMMUNITY COLLEGE..

- The University has been exempted from Income Tax under section 10(22) of the Income Tax Act 1964.
- All investments are made in accordance with EC directives/delegation and/or GOI directives as applicable.
- All assets are in existence except for stolen equipments valued at Rs.13.4 lakhs which are under court case/Investigation and there are no obsolete or unusable assets.
- The internal receipts and unspent grant of previous years are fully adjusted from the approved budget and net amount only released as grant by UGC



Page - 01

**PONDICHERRY UNIVERSITY**  
**DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION**  
**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**

		(Amount-Rs.)	
		Schedule	Previous Year
<b>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>			
CORPUS/CAPITAL FUND	1	249353236	316540470
RESERVES AND SURPLUS	2	102900617	0
earmarked/endowment funds	3	---	---
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	---	---
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	---	---
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	---	---
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS (EMD)	7	102550	92250
<b>TOTAL</b>		<b>352356403</b>	<b>316632720</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	15127943	2497889
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	---	---
INVESTMENTS - OTHERS	10	319059928	282459940
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCE, ETC.	11	18168532	31674891
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		---	---
(to the extent not written off or adjusted)			
<b>TOTAL</b>		<b>352356403</b>	<b>316632720</b>

*M. V. Rajeswarar*  
(M.V. RAJESWARAR)  
FINANCE OFFICER  
PONDICHERRY UNIVERSITY

*Dr. A. K. Bhatnagar*  
DR. A.K. BHATNAGAR  
VICE-CHANCELLOR  
PONDICHERRY UNIVERSITY

Page - 02

**PONDICHERRY UNIVERSITY**  
**DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31ST MARCH 2005**

(Amount-Rs.)		Schedule	Current year	Previous Year
INCOME				
Income from Sales/Services	12			
Grants/Subsidies	13			
Fees/Subscriptions	14		44571368	55474467
Income from Investments	15			
(Income on Investment from earmarked/Endow. Funds transferred to Funds)	16			
Income from Royalty, Publication etc.	17		23275641	16219977
Interest Earned	18			
Other Income	19			
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress				
<b>TOTAL (A)</b>			<b>67847009</b>	<b>71694444</b>
<b>EXPENDITURE</b>				
Establishment Expenses	20		3887267	4984317
Other Administrative Expenses etc.	21		20738146	24505814
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22			
Interest	23		1560468	
Depreciation				
<b>TOTAL (B)</b>			<b>26185881</b>	<b>29490131</b>
Transfer to /from General Reserve				
Balance being excess of Income Over Expenditure (A - B)			<b>41661128</b>	<b>42204313</b>
<b>BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND</b>				

*M.V. Rajeswarar*  
**(M.V. RAJESWARAR)**  
**FINANCE OFFICER**  
**PONDICHERRY UNIVERSITY**

*(Dr. A.K. Bhatnagar)*  
**(DR. A.K. BHATNAGAR)**  
**VICE-CHANCELLOR**  
**PONDICHERRY UNIVERSITY**

PONDICHERRY UNIVERSITY DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005			Page: 03
	Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004	(Amount-Rs.)
<b>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</b>			
Balance as at the beginning of the year			316540470
ADD : Contributions towards Corpus/Capital Fund	316540470		
LESS: Balance of net expenditure transferred to the DDE Corpus Fund	7156499		
ADD: Transferred from Income & Expenditure A/C	100000000		
LESS Depreciation (Previous year)	41661128		
LESS: Deposit with CPWD transferred to PUCCLS	504861		
	155000000		
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>249353236</b>	<b>316540470</b>	
<b>SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</b>			
Other Reserves : DDE Corpus Fund	100000000		
Other Reserves : DDE Corpus Fund - Interest Earned	1155850		
DDE Corpus Fund - Interest Accrued	1744767		
<b>TOTAL</b>	<b>102900617</b>		
<b>SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>Nil</b>		

## Page - 04

	Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004	(Amount-Rs.)
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS			
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS			
SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES			

**PONDICHERRY UNIVERSITY  
DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**

Page - 05

		(Amount-Rs.)	
		Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004
<b>SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>			
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>			
1. Caution Deposit (Security Deposit)			
ADD Receipts (+)		92250	92250
		10300	0
LESS : Refunds (-)			92250
<b>TOTAL (A)</b>		<b>102550</b>	<b>92250</b>
<b>B. PROVISIONS</b>			
<b>TOTAL (B)</b>			
<b>TOTAL (A + B)</b>		<b>102550</b>	<b>92250</b>

PONDICHERRY UNIVERSITY DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005											
Page - 06											
(Amount - Rs.)											
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS											
DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK				
	Cost/Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valua- tion at the Year-end	As at the beginning of the year	On additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the Year-end	As at the current Year-end	As the Previous Year-end	
1. LAND											
a) Freehold											
b) Leasehold											
2. BUILDINGS:											
a) On Freehold Land	87912	14060199	0	14148111	8791	1406020	0	1414810.9	12733300	87912	
b) On Leasehold Land						0	0				
c) Ownership Flats/Premises						0	0				
d) Superstructures on Land						0	0				
not belonging to the entity						0	0				
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT											
4. VEHICLES	199331	0	0	199331	39866	0	0	39866	159465	199331	
5. FURNITURE, FIXTURES	964576	43482	0	1008058	144686	6522	0	151208	856850	964576	
6. OFFICE EQUIPMENT	1246070	591702	0	1837772	311518	147926	0	459443	1378329	1246070	
7. COMPUTER/PERIPHERALS											
8. ELECTRIC INSTALLATIONS											
9. LIBRARY BOOKS											
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY											
11. OTHER FIXED ASSETS											
GEO MAGNETIC OBSERVATORY											
TOTAL OF CURRENT YEAR	2497889	14695383	0	17193272	504861	1560468	0	2065329.2	15127944	2497889	
TOTAL	2497889	14695383	0	17193272	504861	1560468	0	2065329.2	15127943	2497889	

Page - 07		(Amount - Rs.)	
		Current Year 2004-2005	Previous Year 2003-2004
<b>SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM FROM</b>			
<b><u>EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u></b>			
		Nil	Nil
<b>SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS</b>			
1. Others - In Scheduled Banks (FD- DDE)		219059928	282459940
Others - RBI BOND - (Corpus Fund)		100000000	0
<b>TOTAL</b>		<b>319059928</b>	<b>282459940</b>

**PONDICHERRY UNIVERSITY**  
**DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**

Page - 08

(Amount-Rs.)

	Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004
<b>SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCE ETC.,</b>		
<b>A. CURRENT ASSETS</b>		
1. Bank Balances :		
a) With Schedule Banks :		
- On Current Accounts	6930314	2793797
- On Deposit Accounts		
- On Savings Accounts		
Standing Advance to DDE	3500000	3500000
Outstanding Advance	692949	2320895
Advance paid to the supplier	6347	
Interest Accrued (DDE)	5272840	
Interest Accrued (DDE Corpus Fund)	1744767	
Deposit with CPWD	15521315	23060199
LESS: Deposit with CPWD transferred to PUC CCS	15500000	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>18168532</b>	<b>31674891</b>
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
b) On Investments - Others	0	
c) Others		
( includes income due unrealised - Rs..... )		
<b>4. Claims Receivable</b>		
<b>TOTAL (B)</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>18168532</b>	



	Page - 09	
	(Amount - Rs.)	
	Current Year 2004-2005	Previous Year 2003-2004
<b>SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES</b>	Nil	Nil
<b>SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES</b>	Nil	Nil
(Irrecoverable Grants & Subsidies Received)		





	Page - 12 (Amount - Rs.)	
	Current Year 2004-2005	Previous Year 2003-2004
<b>SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
a) Salaries and Wages (DDE)	3837927	4984317
b) Allowances and Bonus	49340	
<b>TOTAL</b>	<b>3887267</b>	<b>4984317</b>
<b>SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC</b>		
	Current Year 2004-2005	Previous Year 2003-2004
a) Electricity and Power	0	0
b) Vehicles Running and Maintenance	86607	69629
c) Postage, Telephone and Communication Charges	1276991	2832494
d) Printing and Stationary	2140834	5572793
f) Travelling and Vonveyances	48782	0
g) Advertisement and Publicity	4520403	5283163
h) Scholarship	7460	28405
i) Other Contingencies	86874	9074
j) Maintenance of Equipments	22836	59053
k) Conduct of Examinations (Salary, Advt. Postage, etc.,)	8192251	5060970
l) Conduct of PCP	4355108	5590233
<b>TOTAL</b>	<b>20738146</b>	<b>24505814</b>



Page - 01

**PONDICHERRY UNIVERSITY  
COMMUNITY COLLEGE  
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**

		(Amount-Rs.)	
	Schedule	Current year 2004-2005	Previous Year 2003-2004
<b><u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u></b>			
CORPUS/CAPITAL FUND	1	30868975	27793276
RESERVES AND SURPLUS	2	---	---
earmarked/ENDOWMENT FUNDS	3	---	---
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	---	---
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	---	---
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	---	---
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	644420	613720
<b>TOTAL</b>		<b>31513395</b>	<b>28406996</b>
<b><u>ASSETS</u></b>			
FIXED ASSETS	8	9829131	9390616
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	---	---
INVESTMENTS - OTHERS	10	19785000	18785000
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCE ETC.	11	1899264	231380
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		---	---
(to the extent not written off or adjusted)		---	---
<b>TOTAL</b>		<b>31513395</b>	<b>28406996</b>


*M. V. Rajeswar*  
(M.V. RAJESWAR)  
FINANCE OFFICER  
PONDICHERRY UNIVERSITY

*D. R. K. Bhatnagar*  
(D.R.K. BHATNAGAR)  
VICE-CHANCELLOR  
PONDICHERRY UNIVERSITY

**PONDICHERRY UNIVERSITY  
COMMUNITY COLLEGE**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31ST MARCH 2005**

		(Amount-Rs.)	
		Schedule	Current year 2004-2005
INCOME		Previous Year 2003-2004	
Income from Sales/Services	12	---	---
Grants/Subsidies	13	---	---
Fees/Subscriptions	14	4424325	6036804
Income from Investments	15	---	---
(Income on Invest. From earmarked/Endow. Funds transferred to Funds)	16	---	---
Income from Royalty, Publication etc.	17	1308083	838118
Interest Earned	18	506479	678319
Other Income	19	---	---
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress			
<b>TOTAL (A)</b>		<b>623887</b>	<b>7553241</b>
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	3069548	2516703
Other Administrative Expenses etc.	21	532155	468583
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	---	---
Interest	23	---	---
Depreciation		58179	---
(Net Total at the year-end - corresponding to Schedule S)			
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3659882</b>	<b>2985286</b>
<b>Balance being excess of Income Over Expenditure (A - B)</b>		<b>2579005</b>	<b>4567955</b>
Transfer to Special Reserve (Specify each)		---	---
Transfer to /from General Reserve		---	---

  
(M.V. RAJESWARI)  
FINANCE OFFICER  
PONDICHERRY UNIVERSITY

  
(DR. A.K. BHATNAGAR)  
VICE-CHANCELLOR  
PONDICHERRY UNIVERSITY

**PONDICHERRY UNIVERSITY  
COMMUNITY COLLEGE**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005**

	(Amount-Rs.)	
	Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004
<b><u>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</u></b>		
Balance as at the beginning of the year		
ADD : Contributions towards Corpus/Capital Fund	1806382	27793276
ADD/ (Deduct) : Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	2579005	4385387
LESS Gross Depreciation	1309688	
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>30868975</b>	<b>27793276</b>
<b><u>SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</u></b>		
<b>1. Capital Reserve :</b>	-----	-----
<b>2. Revaluation Reserve :</b>	-----	-----
<b>3. Special Reserves :</b>	-----	-----
<b>4. General Reserves :</b>	-----	-----
<b>SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>Nil</b>	







PONDICHERRY UNIVERSITY												Page - 06
COMMUNITY COLLEGE												
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005												
SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			(Amount-Rs.)		
	Cost/Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valua- tion at the Year-end	As at the beginning of the year	On additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the Year-end	As at the current Year-end		As the Previous Year-end	
1. LAND												
a) Freehold												
b) Leasehold												
2. BUILDINGS:												
a) On Freehold Land	1380485	190205	75579	1495111	138049	19020	7558	149511	1345600	1380485		
b) On Leasehold Land												
c) Ownership Flats/Premises												
d) Superstructures on Land												
not belonging to the entity												
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT												
4. VEHICLES	203652	0	0	203652	40730	0	0	40730	162922	203652		
5. FURNITURE, FIXTURES	646792	43800		690592	97019	6570	0	103589	587003	646792		
6. OFFICE EQUIPMENT	2027549	70362	0	2097911	506887	17591	0	524478	1573433	2027549		
7. COMPUTER/PERIPHERALS												
8. ELECTRIC INSTALLATIONS												
9. LIBRARY BOOKS	878338	37594	0	915932	527003	22556	0	549559	366373	878338		
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY												
11. OTHER FIXED ASSETS												
GEO MAGNETIC OBSERVATORY												
TOTAL OF CURRENT YEAR	5136816	341961	75579	5403198	1309688	65737	7558	1367867	4035331	5136816		
PREVIOUS YEAR												
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	4253800	1540000	0	5793800	0	0	0	0	5793800	5136816		
TOTAL	9390616	1881961	75579	11196998	1309688	65737	7558	1367867	9829131	10273632		

[illegible]

PONDICHERY UNIVERSITY COMMUNITY COLLEGE				Page - 08
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005				(Amount-Rs.)
	Current Year 2004 - 2005	Previous Year 2003-2004		
<b>SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCE ETC.,</b>				
<b>A. CURRENT ASSETS</b>				
1. Bank Balances :				
a) With Schedule Banks :				
- On Current Accounts	72002	199552		
- On Deposit Accounts				
- On Savings Accounts	1224567	31828		231380
<b>TOTAL (A)</b>				
		1296569		19016380
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>				
3. Income Accrued :				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments - Others	602695			
c) Others				
(includes income due unrealised - Rs.....)				
4. Claims Receivable				
<b>TOTAL (B)</b>				
		602695		
<b>TOTAL (A + B)</b>				
		1899264		

[illegible]

PONDICHERRY UNIVERSITY COMMUNITY COLLEGE			Page - 10
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2005			
	Current Year 2004-2005	Previous Year 2003-2004	
<b>SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS</b>			
1. Entrance Fees	6153357	5967924	
2. Annual Fees/Subscriptions			
3. Seminar/Program Fees			
4. Consultancy Fees			
5. Others (Specify)	77350	68880	
LESS: Capitalised Value of Expenditure	1806382		
<b>TOTAL : Income Over Expenditure</b>	<b>4424325</b>	<b>6036804</b>	
<b>SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS</b>			
	Nil	Nil	
<b>SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC</b>			
	Nil	Nil	

[illegible]



**FORMAT FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
**Name of Entity : COMMUNITY COLLEGE**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2005**

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
<b>I. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>		
a) Cash in Hand			a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20)	3069548	2516703
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 20)	532155	468583
i) In current accounts	231380	2024891			
ii) In deposit accounts	18785000	14485000			
iii) Savings accounts					
<b>II. Grants Receipts</b>			<b>II. Payments made against funds for various projects</b>	0	0
a) From Government of India	0	0			
b) From State Government	0	0			
c) From other sources (details)	0	0			
(Grants for Capital & Revenue to be shown separately)					
<b>III. Income on Investments from</b>			<b>III. Investments and deposit made</b>		
a) Earmarked/Endow. Funds	0	0	a) Out of Earmarked/Endowments funds	0	0
b) Other Funds (Other Investment)	0	0	b) Out of Own Funds (Investments-Others)	0	0
<b>IV. Interest Received</b>			<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work-in-Progress</b>		
a) On Bank Deposit	696399	829684	a) Out of Earmarked/Endowment funds	266382	2139366
b) Loans, Advances etc. Saving A/c	8989	8434	b) Out of Own Funds (Investments-Others)	1540000	0
<b>V. Other Income (Specify)</b>			<b>V. Refund of Surplus Money/Leads</b>		
Fees/Subscriptions	6153357	5967924	a) To the Government of India	0	0
Examination Fees	77350	68880	b) To the State Government	0	0
			c) To other providers of funds	0	0
<b>VI. Advance Borrowed</b>			<b>VI. Finance Charges (Interest)</b>		
Caution Deposit	274600	268600	VII. Other Payments (specify) Caution Deposit	243900	190700
<b>VII. Any Other Receipts (Give details)</b>			<b>VIII. Closing Balances</b>		
Other Receipts	506479	678319	a) Cash in Hand	0	0
			b) Bank Balances		
			i) In Current Accounts	72002	199552
			ii) In deposit Accounts	19785000	18785000
			iii) Savings Accounts	1224567	31828
<b>TOTAL</b>	<b>26733554</b>	<b>24331732</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26733554</b>	<b>24331732</b>

COMMUNITY COLLEGE						
INVESTMENTS AS ON 31.03.2005						
SL.NO.	NAME OF THE BANK	AMOUNT	MODE	NO.	DATE	RATE OF INTEREST
1	Allahabad Bank	1000000	F.D.	634558	11.04.04	5.25
2	Corporation Bank	300000	F.D.	413316	24.01.05	5.25
3	Corporation Bank	1000000	F.D.	413399	28.02.05	5.25
4	Federal Bank	1500000	F.D.	365005	26.02.05	6.25
5	Indian Bank, PUB	400000	F.D.	101188	14.04.04	5.25
6	Indian Bank, PUB	1500000	F.D.	101221	04.06.04	5.25
7	Indian Bank, PUB	1000000	F.D.	101275	23.09.04	5.25
8	Indian Bank, PUB	500000	F.D.	101209	13.05.04	5.25
9	Indian Bank, Lawspet	285000	F.D.	366506	25.07.04	5.25
10	Indian Bank, Lawspet	4000000	F.D.	366897	25.09.04	5.25
11	Indian Bank, Lawspet	1500000	F.D.	366807	15.09.04	5.25
12	Indian Bank, Lawspet	2000000	F.D.	367076	26.10.04	5.25
14	Karnataka Bank	800000	F.D.	784808	08.04.04	5
15	State Bank of Mysore	500000	F.D.	136855	08.04.04	5.25
16	State Bank of Mysore	500000	F.D.	136873	05.05.04	5.25
17	State Bank of India, Main	1500000	F.D.	543058	21.05.04	5
18	Indian Bank, Kamaraj Salai	1500000	F.D.	411395	15.09.04	5.25
TOTAL >>>		19785000				

**AUDIT CERTIFICATE**

I have examined the Receipts and Payments Account and the Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2005 and the Balance Sheet as on 31 March 2005 of the Pondicherry University, Pondicherry. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report which inter-alia contains the under mentioned major audit observations,

- ❖ Non-inclusion of the balances of the self-financing institutions of the University in the common format of accounts (Para 2.1.)
- ❖ Continued exhibition of Temporary Advances as "Current Assets"- 'Loans and Advances' without clearance and charging to revenue (Para 2.2.2.1)
- ❖ Exclusion of cash balance and investment of Rs.48.55 lakh from the Assets (Para 2.2.2.2)
- ❖ Depreciation on Assets of Plan and Earmarked Special Fund was charged to Non-Plan (Para 3.2.1.)

I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Pondicherry University, Pondicherry, according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place: Chennai

Date : 01.2006

**Principal Accountant General (Civil Audit)**  
**Tamil Nadu and Pondicherry**